



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 6—मई 12, 2006 (वैशाख 16, 1928)

No. 18]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 6—MAY 12, 2006 (VAISAKHA 16, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 2006

सं. 2/4/06-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में  
निम्नलिखित निजी सहायकों को निजी सचिवों के पद पर वेतनमान  
रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ रूप से उनके नामों के आगे दर्शाई  
गई तिथियों से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी  
पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	दिनांक
1.	श्रीमती तृप्ता अरोड़ा	05.04.2006 (पूर्वाह)
2.	श्री टी. जगन्नाथ राव	05.04.2006 (पूर्वाह)
3.	श्रीमती जसपाल कौर	05.04.2006 (पूर्वाह)
4.	श्रीमती संघमित्रा	05.04.2006 (पूर्वाह)
5.	श्री पी. बालासुब्रामणियन	05.04.2006 (पूर्वाह)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की निजी सचिवों के पद पर नियुक्ति,  
समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली,

1964 के नियम 9 के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर  
है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं  
होता है।

मांगे लाल

विशेष कार्य अधिकारी

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

दिनांक 24 अप्रैल 2006

सं. 2/1/06-प्रशासन-22828--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा  
श्रीमती ममता उपाध्याय लाल, आईओएफएस (89), को आयोग में  
निदेशक के पद पर वेतनमान रु. 14,300-400-18,300/- में केन्द्रीय  
प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 13.04.2006 (पूर्वाह) से पांच वर्षों की अवधि  
तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त  
करते हैं।

मांगे लाल

विशेष कार्य अधिकारी

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. 2/2/06-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अनुभाग अधिकारी श्री डाल चंद, को अवर सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,300-325-15,200/- में स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर दिनांक 10.04.2006 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल  
विशेष कार्य अधिकारी  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

दिनांक 25 अप्रैल 2006

सं. 2/4/06-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निजी सहायक श्री राजकुमार चौधरी, को निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 20.04.2006 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री राजकुमार चौधरी की निजी सचिव के पद पर नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली, 1964 के नियम 9 के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

मांगे लाल  
विशेष कार्य अधिकारी  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 अप्रैल 2006

सं. पी.सात-4/2006-कार्मिक-3--सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु तक पहुंचने के कारण आंतरिक लेखा परीक्षा-चार, के.रि.पु. बल, चंडीगढ़ के श्री आर. एल. सौनी (इरला संख्या-4168) ने संयुक्त सहायक निदेशक का पदभार दिनांक 31.03.2006 (अपराह्न) को त्याग दिया।

जोगीन्दर सिंह  
अ. पु. उप महानिदेशक (कार्मिक-3)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 अप्रैल 2006

सं. पी.सात-9/2005-कार्मिक-1--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति पर वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/- में सहायक निदेशक (लेखा) के पद स्थानापन्न रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्होंने उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख को उनके पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण की तारीख
1.	श्री सी. जॉर्ज, सहायक निदेशक (लेखा) (इरला नं. 3951)	06.01.2006 (पूर्वाह्न)
2.	श्री चेतन मोटवानी, सहायक निदेशक (लेखा) (इरला नं. 3961)	06.01.2006 (पूर्वाह्न)
3.	श्री तारा सिंह, सहायक निदेशक (लेखा) (इरला नं. 3978)	10.01.2006 (पूर्वाह्न)

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

भारतीय लेखा तथा लेखपरीक्षा विभाग  
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, उड़ीसा  
पुरी-752002, दिनांक 13 फरवरी 2006

सं. डब्ल्यू.एम.47-2म.ले./म.ले.अ.-1269--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा ने निम्नलिखित मंडल लेखा अधिकारी-ग्रेड-II को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से एवं उनके वरिष्ठों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-I संवर्ग (ग्रुप-ख--राजपत्रित) वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/- पर सहर्ष स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान करती हैं :--

1. श्री युक्त रंजन कुमार महापात्र	28.12.2005 (पूर्वा.)
ह./- अपठनीय उप महालेखाकार (निर्माण लेखा)	

रक्षा मंत्रालय  
आयुध निर्माणी बोर्ड

कोलकाता, दिनांक 10 अप्रैल 2006

सं. 01/2005/मुख्या./एन.जी.--महानिदेशक, आयुध निर्माणियां/अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से तदर्थ पदोन्नति की स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	किस पद से	किस पद पर	निजी सचिव के रूप में पदोन्नति की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री/श्रीमती राम जनक	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	01.02.2001 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4	5
2.	दिलीप कुमार दास	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	01.03.2001 (पूर्वाह)
3.	गोपेन कुमार दत्ता	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	07.09.2001 (पूर्वाह)
4.	पी. के. हाजरा	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	07.09.2001 (पूर्वाह)
5.	एल. एन. दत्ता	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	07.09.2001 (पूर्वाह)
6.	एल. सी. प्रमाणिक	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	07.09.2001 (पूर्वाह)
7.	देवाशीष मुखोपाध्याय	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	01.01.2002 (पूर्वाह)
8.	आर. जे. बनर्जी	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	19.07.2002 (पूर्वाह)
9.	आर. के. चट्टोपाध्याय	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	08.11.2002 (पूर्वाह)
10.	माया सिंह	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	08.11.2002 (पूर्वाह)
11.	एस. के. गांगुली	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	19.08.2002 (पूर्वाह)
12.	ए. के. सेन	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	01.03.2005 (पूर्वाह)
13.	एस. के. वैद्य	वैयक्तिक सहायक	निजी सचिव	25.07.2005 (पूर्वाह)

2. उपर्युक्त सभी व्यक्तियों ने उच्च कार्यभार उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तिथियों से ग्रहण किया।

3. सम्बन्धित अधिकारी अपनी प्रोन्नति की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

एन. मुखोपाध्याय  
उप महानिदेशक/मुख्यालय  
कृते महानिदेशक, आयुध निर्माणियां

-----

सं. 02/2005/मुख्या./एन.जी.--महानिदेशक, आयुध निर्माणियां/अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से तदर्थ पदोन्नति की स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	किस पद से	किस पद पर	सहायक स्टाफ अधिकारी के रूप में पदोन्नति की तारीख
1	2	3	4	5
	श्री/श्रीमती			
1.	नारायण चन्द्र भौमिक	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
2.	काशीनाथ घोषाल	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
3.	नीला दासगुप्ता	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
4.	मलय कुमार घोष	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
5.	चिन्मू धर	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
6.	रविन्द्र नाथ दे	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
7.	अशोक कुमार बंद्योपाध्याय	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
8.	निर्मलेन्दू कर्मकार	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
9.	असीत बरन विश्वास	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
10.	तपन कुमार घोष	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)

1	2	3	4	5
11.	श्यामली मुखर्जी	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
12.	आलोक कुमार दे भैमिक	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
13.	ओमर हैदर सिद्दीकी	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
14.	सतेन्द्र नाथ गांगुली	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
15.	स्वपन कुमार सामंत	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
16.	दिलीप कुमार पाईक	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
17.	दिनेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
18.	एन. सी. दे	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	27.05.2005 (पूर्वाह)
19.	वी. के. शुक्ला	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	01.06.2005 (पूर्वाह)
20.	सीमा दत्ता	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	01.06.2005 (पूर्वाह)
21.	निभा दास	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	01.07.2005 (पूर्वाह)
22.	बी. हालदर	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	07.07.2005 (पूर्वाह)
23.	कल्पना राय	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	01.08.2005 (पूर्वाह)

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नतियां प्रत्येक के नामों के सम्मुख उल्लिखित तिथि से एक वर्ष के लिए प्रभावी होंगी।

3. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्तियां ऐसे संशोधन/संशोधनों, जो परिवर्तित अवस्थाओं में आवश्यक होने पर, न्यायालय/न्यायाधिकरण के अन्तर्गत दिए गए निर्णयों या आदेशों के अधीन हैं।

4. सम्माननीय उच्चतम न्यायालय (संविधान पीठ) की रिट याचिका (दीवानी) संख्या 323/2002 के साथ जोड़े गए समान मामलों पर निर्णयोपरान्त, कार्मिक एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा उच्च श्रेणी में वरीयता और प्रोन्नतियों के मुद्दे पर जारी निर्देश प्राप्त होने के बाद, आवश्यक होने पर, ऐसी तदर्थ प्रोन्नतियां समीक्षा के अधीन होंगी।

5. इन तदर्थ प्रोन्नतियों का आदेश विद्यमान रिक्तियों पर वरीयता को प्रभावित किए बिना दिया जाता है।

6. सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति सरकारी कर्मचारियों के प्रोन्नति के संदर्भ में नेशनल इफेक्ट, कार्मिक एवं प्रशिक्षण निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2011/1/2001-स्थापना (डी) दिनांक 21.01.2002 के अनुसार सरकारी आदेश की प्राप्ति होने पर, आवश्यक रूप से प्रभावी होगा।

एन. मुखोपाध्याय  
उप महानिदेशक/मुख्यालय  
कृते महानिदेशक, आयुध निर्माणियां

खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2006

(सां.) कनिष्ठ समय मान को भारतीय खान ब्यूरो में तदर्थ के आधार पर उप खनिज अर्थशास्त्री (सां) वरिष्ठ समयमान-भारतीय सांख्यिकीय समय मान भारतीय सांख्यिकी सेवा के पद पर दिनांक 09.03.2006 से पदोन्नति दी जाती है।

सं. ए-19011/577/2004-स्था.ए-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 12015/1/2006-आईएसएस दिनांक 10.02.2006 के अनुपालन में श्रीमती अंशु सिंह, सहायक खनिज अर्थशास्त्री

एस. के. बातव  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

## भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 19 अप्रैल 2006

सं. 666-ए/ए-38012/1(स्वै.से.नि.)/2002/19ए--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-48 (ए) की शर्तों के अन्तर्गत श्री जे. पी. भिण्डा, कलाकार (समूह-ख-राजपत्रित) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 01.09.2005 (पूर्वाह्न) से प्रभावित स्वेच्छा से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए।

शेखर कुमार सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 19 अप्रैल 2006

सं. सी-79/707--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' डिवीज़न-I (सर्वेक्षकों/सर्वेक्षण सहायकों) की भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक ग्रुप 'बी' के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नति की जाती है :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
1.	श्री के. सी. रथ	21.12.2005
2.	श्री आर. आर. अंसारी	28.11.2005
3.	श्री पी. डी. कुमार	01.12.2005
4.	श्री पी. एल. बंसल	30.11.2005
5.	श्री पी. के. शर्मा	07.12.2005
6.	श्री के. के. बर्थवाल	15.12.2005 (अपराह्न)
7.	श्री एस. बी. वैक्याचारयलु	30.11.2005 (अपराह्न)
8.	श्री कमल शर्मा	25.11.2005
9.	श्री एच. एन. सुरेश	24.11.2005
10.	श्री मधुसूदन दे	22.12.2005
11.	श्री एस. के. नौटियाल	13.12.2005
12.	श्री आलोक पॉल	12.12.2005
13.	श्री शशी कांत	24.11.2005
14.	श्री के. फानी राजू	24.11.2005
15.	श्री के. अनन्थ कुमार	28.11.2005
16.	श्री ओ. पी. शर्मा	12.12.2005

1	2	3
17.	श्री बी. एस. रावत	25.11.2005
18.	श्री शिव प्रसाद डे	15.12.2005
19.	श्री एस. एस. राना	28.11.2005
20.	श्री एस. के. चक्रवर्ती	28.11.2005
21.	श्री प्रदीप कुमार धिलिडयाल	12.12.2005
22.	श्री अरून कुमार थापा	22.11.2005
23.	श्री सोम प्रकाश शर्मा	09.12.2005
24.	श्री एम. एस. अंसारी	15.12.2005
25.	श्री सुनील कुमार	07.12.2005
26.	श्री जे. एस. रावत	15.12.2005 (अपराह्न)
27.	श्री आनन्द सिंह	28.11.2005
28.	श्री एन. सी. हरी	15.11.2005
29.	श्री आर. के. गुप्ता	07.12.2005
30.	श्री पी. पी. जुगरान	24.11.2005
31.	श्री के. एस. चौहान	12.12.2005
32.	श्री अजय कुमार भटनागर	12.12.2005
33.	श्री अशोक कुमार भटनागर	24.11.2005
34.	श्री एम. एम. एस. नेगी	24.11.2005
35.	श्री आर. सिवदास	07.12.2005
36.	श्री जनक कुमार गिरि	16.01.2006
37.	श्री एन. मोहन दास	07.12.2005
38.	श्री ए. अय्यास्वामी	07.12.2005
39.	श्री राजेश मोहन धिलिडयाल	12.12.2005
40.	श्री एन. बी. एस. गुप्ता	30.11.2005 (अपराह्न)
41.	श्री एम. के. ममगाई	15.12.2005
42.	श्री के. बालाब्रह्ममईया	24.11.2005
43.	श्री आर. के. थपलियाल	28.11.2005
44.	श्री बिरेन्द्र सिंह राना	15.12.2005
45.	श्री चौ. रामालिंगम	07.12.2005 (अपराह्न)
46.	श्री मदन मोहन	12.12.2005
47.	श्री पी. पलानीमुत्थु (अनुसूचित जाति)	30.11.2005

1	2	3
48.	श्री आर. गौधावमन (अनुसूचित जाति)	10.02.2006
49.	श्री रमानी रंजन दाश (अनुसूचित जाति)	24.12.2005
50.	श्री सी. जी. नायक (अनुसूचित जन जाति)	28.11.2005
51.	श्री तुलसी प्रसाद (अनुसूचित जाति)	25.11.2005
52.	श्री एन. ई. श्रीरंगम (अनुसूचित जाति) (अपराह)	09.12.2005
53.	श्री भीम सैन स्वांसी (अनुसूचित जाति)	28.11.2005
54.	श्री ए. सी. कैबर्ता (अनुसूचित जाति)	28.11.2005
55.	श्री राकेश कुमार (अनुसूचित जाति)	16.12.2005
56.	श्री प्रेम सिंह आर्य (अनुसूचित जाति)	19.12.2005
57.	श्री गोपाल चन्द्रा दलाई (अनुसूचित जाति)	21.12.2005
58.	श्री नारायण घडेई (अनुसूचित जाति)	21.12.2005
59.	श्री बखशीश राम (अनुसूचित जाति)	28.11.2005
60.	श्री प्रशांत कुमार दास (अनुसूचित जाति)	26.12.2005
61.	श्री बाल गोविन्द राम (अनुसूचित जाति)	24.11.2005
62.	श्री जग मोहन सिंह नेगी	23.11.2005
63.	श्री जनार्दन प्रसाद ध्यानी	13.12.2005
64.	श्री आशीष रंजन दास	25.11.2005
65.	श्री एम. वेनुगोपाल	05.12.2005
66.	श्री के. चन्द्रप्पा (अनुसूचित जन जाति)	01.12.2005

एम. गोपाल राव  
मेजर जनरल  
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी-114/724-एस.ओ.एस.(ए)(1)--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' भंडार सहायकों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक भंडार अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर रुपये 5,500-175-9,000/- के वेतनमान में उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री एम. एस. कलोटा (अनुसूचित जाति)	24.01.2006
2.	श्री एस. के. नीमा	24.01.2006
3.	श्री ए. के. जैन	25.01.2006

एम. गोपाल राव  
मेजर जनरल  
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी-125/725-स्टेनो(1)--निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-I को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निजी सचिव (ग्रुप 'बी') के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्रीमती रक्षा रानी	17.03.2006

एम. गोपाल राव  
मेजर जनरल  
भारत के महासर्वेक्षक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र  
कार्मिक प्रभाग

मुम्बई-85, दिनांक 17 अप्रैल 2006

सं. पीडी/11(1)/2006-आर-III/2006/3041--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती जयश्री मोहन नायर, सहायक, को दिनांक 20.02.2006 (पूर्वाह) से 31.03.2006 (अपराह) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 17 अप्रैल 2006

सं. 13/6(10)/2005-उ एवं ख(नाईस)/2944--श्री रायगिरि नारायण जयराज उप मुख्य कार्यकारी, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद, ने दिनांक 01.03.2006 (पूर्वाह) से मुख्य कार्यकारी, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. के. वी. नायर  
अवर सचिव

क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-400094, दिनांक 17 अप्रैल 2006

सं. क्रभनि/10015/भर्ती/1572--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने स्टॉक सत्यापन टीम, क्रभनि, मुम्बई के वरिष्ठ भंडारी श्री डी. बंधोपाध्याय को केन्द्रीय भंडार एकक, क्रभनि, मुम्बई में दिनांक 16.01.2006 (पूर्वाह) से 03.03.2006 (अपराह) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

किशन टी. लोंडे  
प्रशासन अधिकारी-III

## राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

सं. राराप्रप्रौके/प्रशा./भ-728(एसआरडी)/322--भारत के राष्ट्रपतिजी ने श्री एन. भीमा को दिनांक 03.04.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

डी. एस. राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

## विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुम्बई-400705, दिनांक 18 अप्रैल 2006

सं. ब्रिट/951/271/198--महामहिम राष्ट्रपतिजी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में कुमारी रक्षा कुशवाहा को दिनांक 4 अप्रैल 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

ए. के. कोहली  
मुख्य कार्यकारी

## इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 12 अप्रैल 2006

सं. इंगांपअके/ए-11013/1/2005-भर्ती/198--राष्ट्रपति महोदय, इस केन्द्र के निम्नलिखित श्रेणी "ए" वैज्ञानिक अधिकारियों को 1 अक्टूबर, 2005 से स्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	
1.	पलनिवेल ए.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
2.	पीयूष गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
3.	अरुण मुत्तु के.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
4.	जयराज पी.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
5.	अरुल भास्कर आर.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
6.	त्याग सेन्तिल कुमार जे.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
7.	कृष्णकुमार एस.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
8.	विवेक नेमा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
9.	सुनिल कुमार गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
10.	जैनेन्द्र कुमार दुबे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी

1	2	3
11.	सुधीर कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
12.	कार्तिकेयन टी.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
13.	किन्सुक कुमार दास	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
14.	रामकृष्णन एम.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
15.	चन्द्रमौली शर्मा एम. एस.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
16.	कल्याण राव कुच्चिपुडी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
17.	शिव प्रकाश रूहेला	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
18.	सतीश कुमार वेलगा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
19.	मेहुल एस. भट्ट	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
20.	कंचन कुशवाहा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
21.	बालकृष्णन एस.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
22.	शुद्धसत्त्व घोष	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
23.	प्रशान्त. जी. नायर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
24.	स्वाति वी. बुरेवार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
25.	सुमंत्र मंडल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
26.	अभिषेक मित्र	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
27.	चेतन वर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी

वी. दयालन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 18 अप्रैल 2006

सं. इंगांपअके/ए-11013/2006-भर्ती/274--राष्ट्रपति महोदय, इस विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में सितम्बर 1, 2005 के अपराह्न से अगले आदेश तक वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन 9,100/- रु. पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	प.प. सं./अनुभाग	नाम
1.	6514 एमएचडी/एनईजी	श्री श्री रामकृष्णा टी.

वी. दयालन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. इंगांपअके/ए-11013/2006-भर्ती/275--राष्ट्रपति महोदय, इस विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में सितम्बर 1, 2005 के अपराह्न से अगले आदेश तक वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" के पद पर

रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन 9,375/- रु. पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	प.प. सं./अनुभाग	नाम
1.	6511 एमएमडी/एमएमजी	श्री प्रसाद रेड्डी जी.वी.
2.	6512 आरआरडीडी/आरपीजी	श्री राजेश वी.
3.	6513 पीआईआरडी एण्ड आरएचएस/आईटीजी	श्री राकेश वी.
4.	6515 एसटीजी/एफआरटीजी	श्री प्रशांत शर्मा
5.	6516 ईआईडी/ईआईजी	श्री रवि कुमार भामिदपति
6.	6517 ईआईडी/ईआईजी	कुमारी गुप्ता निधि

वी. दयालन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुसुम राकेश इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 21 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/25270/269---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कुसुम राकेश इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कानपुर डायग्नोस्टिक एंड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 24 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/10049/280---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कानपुर डायग्नोस्टिक एंड प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राकमैन्स हेल्थ एण्ड वेल्थ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 24 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/27276/284---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स राकमैन्स हेल्थ एण्ड वेल्थ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एन.वी.पी. कैटर्स एण्ड होटिलियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 24 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/15682/288---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एन.वी.पी. कैटर्स एण्ड होटिलियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सगुन प्लान्टेशन लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 24 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/20764/292---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सगुन प्लान्टेशन लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल



कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स त्रिविष्णु इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 24 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/17709/296--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स त्रिविष्णु इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स असमिता नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 24 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/23221--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स असमिता नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स छाकेश्वरी स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 24 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/9399/304--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स छाकेश्वरी स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोनार्क फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 24 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/24655/308--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि

से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कोनार्क फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सत्यम प्लाजा प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. आर.ओ.सी./560/3761/413--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सत्यम प्लाजा प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स स्टर्लिंग रीयल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. आर.ओ.सी./560/3886/417--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स स्टर्लिंग रीयल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स वंडर आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. आर.ओ.सी./560/20128/421--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स वंडर आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का

नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स रेणू कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. आर.ओ.सी./560/9937/425--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स रेणू कन्सलटेन्ट्स एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जम्मू-180012, दिनांक 20 अप्रैल 2006

सं. आर.ओ.सी./जेएमयू/560(5)/एसईएस-2003--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से कम्पनियां विघटित समझी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	07-1185	मैसर्स कश्मीर फैरो प्राईवेट लिमिटेड
2.	07-787	मैसर्स राजौरी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	07-1691	मैसर्स हाई टेक डेयरीज प्राईवेट लिमिटेड।

ओ. पी. शर्मा  
कम्पनी पंजीकार  
जम्मू एण्ड कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 20 अप्रैल 2006

सं. 560(5)/2003--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित

कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	60832	मैसर्स वर्षा के शहा ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	128999	मैसर्स विद्युत ई-बिजनेसेस प्राईवेट लिमिटेड
3.	65866	मैसर्स विषय इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	66844	मैसर्स विज्ञान मोनेटरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
5.	90890	मैसर्स वेबस्टार ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	36733	मैसर्स वेल-बिल्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
7.	52063	मैसर्स वेस्टर्न इस्टेट एक्सचेंज लिमिटेड
8.	66621	मैसर्स विन्डफुल इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	40932	मैसर्स योगो लारी इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	65957	मैसर्स अलकयल टेक्नोलोजी वेन्चर्स लिमिटेड
11.	115052	मैसर्स अब्रानाज ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
12.	93432	मैसर्स अदिति होटी लिमिटेड
13.	98585	मैसर्स एडोर ट्रेडिंग एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	94931	मैसर्स ऐड-अप इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	103100	मैसर्स अग्रवाल मेटल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
16.	128304	मैसर्स अवकल.कॉम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
17.	90500	मैसर्स आल स्पेशलिटी केमिकल प्राईवेट लिमिटेड
18.	66046	मैसर्स अल्पाइन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
19.	102627	मैसर्स ए एम ए कम्प्युनिकेशन्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
20.	87361	मैसर्स अम्बर सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
21.	27942	मैसर्स एम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	105432	मैसर्स आनन्द टाइमशेयर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	97110	मैसर्स अन्जना शेयर ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
24.	39522	मैसर्स अंकित डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	52394	मैसर्स चेलासन थेरापी सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
25.	77425	मैसर्स अंकुर आयरन एण्ड स्टील (बाम्बे) प्राईवेट लिमिटेड	52.	93387	मैसर्स चेतन कॉपर एण्ड कोमोडिटीज लिमिटेड
26.	24221	मैसर्स अप्राउलिक बिल्डर्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	53.	108158	मैसर्स चिब लीजिंग एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	28102	मैसर्स अप्राउलिक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	54.	93529	मैसर्स सीएमएम आडियोज लिमिटेड
28.	80933	मैसर्स एसेप्टिक प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	55.	93531	मैसर्स सीएमएम ब्रॉडकास्ट इक्विपमेन्ट लिमिटेड
29.	18000	मैसर्स अश्रफी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	56.	72052	मैसर्स कम्प्यूटर ट्रेनिंग एण्ड एजुकेशन सर्विसेस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
30.	95369	मैसर्स अष्टलक्ष्मी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	52532	मैसर्स क्रॉस वेव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	71624	मैसर्स अश्विन इन्टरकेम प्राईवेट लिमिटेड	58.	46267	मैसर्स साइबरमार्ट इन्टरनेशनल लिमिटेड
32.	133840	मैसर्स अताश मल्टीमाडल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	59.	112760	मैसर्स दस्तक फिल्मस एण्ड वीडियो टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
33.	59368	मैसर्स ऑटोप्लास्ट (इण्डिया) लिमिटेड	60.	44095	मैसर्स डीलफार्मा इम्पेक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
34.	94054	मैसर्स अविक फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	61.	113498	मैसर्स डेकोरम ट्रेडलिक प्राईवेट लिमिटेड (सी.एन.)
35.	114907	मैसर्स अजरा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	62.	48691	मैसर्स दीपक यार्न प्रोसेसर्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
36.	99858	मैसर्स बी. बरुन सिल्वरवेयर प्राईवेट लिमिटेड	63.	25924	मैसर्स डेल्टा कन्सलटैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	17343	मैसर्स बदामिया इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	64.	123736	मैसर्स धनुष इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	122990	मैसर्स बीबीसी कार्गो प्राईवेट लिमिटेड	65.	110506	मैसर्स डायमो मार्केटिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
39.	87487	मैसर्स बेस्ट नवरंग फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	66.	57745	मैसर्स ईस्टर्न लिफ्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	97181	मैसर्स भाटिया ब्रदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	67.	130479	मैसर्स ईस्टर्न वेब टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
41.	106569	मैसर्स भाटिया ब्रदर्स (इन्टरनेशनल) प्राईवेट लिमिटेड	68.	45219	मैसर्स इलिजेन्ट प्लानर्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	96183	मैसर्स भाटिया ब्रदर्स डाईज एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	69.	82490	मैसर्स इमफाउण्ड इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	104721	मैसर्स भाटिया ब्रदर्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	70.	77328	मैसर्स फण्ड्स फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
44.	105489	मैसर्स भाटिया ब्रदर्स ट्रेडिंग इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	71.	87885	मैसर्स फेन्टास्टिक लीफिन एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
45.	54534	मैसर्स बिटुकेम मेम्ब्रेन्स लिमिटेड	72.	56030	मैसर्स फा-शा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	93310	मैसर्स ब्रिज कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड	73.	82342	मैसर्स फाइन रेमेडीज प्राईवेट लिमिटेड
47.	141590	मैसर्स कैपिय सपोर्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	74.	92335	मैसर्स फायर बर्गेलरी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	98838	मैसर्स केदार केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड			
49.	66812	मैसर्स चेज इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड			
50.	63303	मैसर्स चटर्जी कुलकर्णी एण्ड एसोसिएट आर्किटेक्ट्स एण्ड डिजाईनर्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
75.	68987	मैसर्स फायर स्टोन इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	99.	79259	मैसर्स कमोन ट्रेड एण्ड फिनस्टॉक प्राईवेट लिमिटेड
76.	85891	मैसर्स जेनरेट इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	100.	95896	मैसर्स कन्वन इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
77.	94772	मैसर्स गुडडील प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	101.	17611	मैसर्स कानूनगो इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	44256	मैसर्स गोयल वूल कारपेक्स प्राईवेट लिमिटेड	102.	92027	मैसर्स काशिद इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	124487	मैसर्स ग्रेफिकोन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	103.	74697	मैसर्स खन्डेलवाल पैरॉक्साईड्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	131636	मैसर्स ग्रेफिटी इन्फो-टेक प्राईवेट लिमिटेड	104.	101557	मैसर्स किराटा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
81.	74682	मैसर्स गुरुसुरी इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	105.	88308	मैसर्स कुनाल ट्रान्स-कैम प्राईवेट लिमिटेड
82.	26520	मैसर्स हरिया मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	106.	47854	मैसर्स केएमपी सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	56029	मैसर्स हसानियन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	107.	19994	मैसर्स लक्ष्मी सिने इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
84.	126209	मैसर्स हाई बिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	108.	96036	मैसर्स लालवानी रियल्टर्स लिमिटेड
85.	84598	मैसर्स हिमाद्री इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	109.	83074	मैसर्स लैन्डमार्क इलेक्ट्रोल्स (गोवा) प्राईवेट लिमिटेड
86.	83096	मैसर्स हितेश शेयर्स एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड	110.	96186	मैसर्स लावण्य मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
87.	93193	मैसर्स एचवीएस कन्सल्टेन्सी एण्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	111.	100855	मैसर्स लियो थर्मोवेयर लिमिटेड
88.	24529	मैसर्स इन्डोसन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	112.	122468	मैसर्स लाइफ लाइन हर्ट इन्स्ट्र्यूट प्राईवेट लिमिटेड
89.	42624	मैसर्स इंगोरेक्स एक्सपोर्ट एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	113.	77424	मैसर्स लोइवाल स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	101107	मैसर्स इन्टेग्रेटेड इक्विजि प्राईवेट लिमिटेड	114.	99683	मैसर्स लूनकर कोमोडिटीज प्राईवेट लिमिटेड
91.	57959	मैसर्स इन्टेलेक्चुअल विजन प्राईवेट लिमिटेड	115.	26235	मैसर्स लु ब्रा डिज ट्यूब इन्जिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	42782	मैसर्स इन्टरलिक सर्विसेस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	116.	104325	मैसर्स लूमेक्स लाइटिंग प्राईवेट लिमिटेड
93.	97630	मैसर्स जय माता दी इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	117.	22406	मैसर्स एम जी ए इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
94.	65365	मैसर्स जनस सर्विसेस एण्ड कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	118.	28825	मैसर्स एम एम इन्डस्ट्रियल होल्डिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
95.	51085	मैसर्स जेसवानी फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	119.	23258	मैसर्स एम एम ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
96.	37305	मैसर्स ज्वाय इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	120.	140121	मैसर्स एमएन2 प्रोमेड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
97.	86823	मैसर्स जेवीन सेक्युरिटीज एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड	121.	75206	मैसर्स मादीप ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
98.	87707	मैसर्स काइजन इक्विटी रिसर्च एण्ड मैनेजमेन्ट सर्विसेस लिमिटेड	122.	57994	मैसर्स मेगनम ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
			123.	43958	मैसर्स मेगनम वीडियो प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
124.	35903	मैसर्स महाराजा इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	152.	123810	मैसर्स नेटवर्थ ईक्वीलाईन प्राईवेट लिमिटेड
125.	59966	मैसर्स मही स्टील एलोयस प्राईवेट लिमिटेड	153.	91788	मैसर्स नेटवर्थ हाऊसिंग फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड
126.	51446	मैसर्स मकरन्द इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	154.	95015	मैसर्स नेटवर्थ फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
127.	53596	मैसर्स मनसुख डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	155.	5632	मैसर्स न्यू एसोसिएटेड कार्मार्शियल इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
128.	74344	मैसर्स मेयल शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड	156.	60003	मैसर्स निलेश स्टील फैब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
129.	21438	मैसर्स मार्किव पॉवर लिमिटेड	157.	84615	मैसर्स नितिन रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
130.	89347	मैसर्स मार्पस एण्ड मेप्रास एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	158.	45004	मैसर्स वनअप इन्वेस्टमेन्ट एण्ड कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
131.	43733	मैसर्स मरुधर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	159.	67650	मैसर्स ओनिडा एनके कम्प्युनीओनीडा एनके कम्प्युनिकेशन्स लिमिटेड
132.	79560	मैसर्स मास्टर मोटर्स फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	160.	57513	मैसर्स पर्ल बीच रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	127541	मैसर्स मास्टरमाइन्ड ओनलाईन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	161.	111091	मैसर्स पेलिकन मल्टीपैक प्राईवेट लिमिटेड
134.	30230	मैसर्स मिल क्लब (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	162.	76402	मैसर्स पेरेग्राइन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
135.	127066	मैसर्स मेडिको नेटवर्क (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	163.	42204	मैसर्स पाईरोली होटल्स एण्ड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
136.	112937	मैसर्स मीरन कोस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	164.	117329	मैसर्स पीएमसी-सीओरा इण्डिया नेटवर्किंग प्राईवेट लिमिटेड
137.	57525	मैसर्स मेटल पॉवर कन्सलटेन्सी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	165.	111027	मैसर्स पॉवर लाईट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	44104	मैसर्स मोनोपाली इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	166.	127409	मैसर्स प्राईम एजुकेशन नेटवर्क सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
139.	101118	मैसर्स मोटीवेट इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	167.	42123	मैसर्स प्रोसोफ्ट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	62227	मैसर्स मुद्रा इलेक्ट्रो फूड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	168.	98288	मैसर्स प्रथवी इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
141.	94977	मैसर्स मल्टीएक्ट इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	169.	79746	मैसर्स पफिन ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
142.	56608	मैसर्स मल्टीसेल्स एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	170.	109403	मैसर्स क्वालिटास हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
143.	82960	मैसर्स मुसुको स्टॉकब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड	171.	81963	मैसर्स रडील कैपिटल एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड
144.	25048	मैसर्स एम.यू. इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	172.	115307	मैसर्स राजा रेफ्रिजरेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
145.	47334	मैसर्स नगीना ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	173.	53263	मैसर्स रनदीप एग्रो इन्डस्ट्रियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
146.	75209	मैसर्सल नलबाय फाइनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	174.	57255	मैसर्स रस्तिक होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
147.	83316	मैसर्स नारायनदास लालचंद कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	175.	85510	मैसर्स रतनलाल सी बाफना मेटल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
148.	87061	मैसर्स नवीरा इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	176.	86067	मैसर्स राउशी सिलिन्डर मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
149.	65500	मैसर्स निनाद एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	177.	36575	मैसर्स रिविक लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
150.	65292	मैसर्स निलय होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड			
151.	89107	मैसर्स नेटवर्थ क्रेडिटलाईन प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
178.	61546	मैसर्स रिबार्ड पॉवर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	203.	123706	मैसर्स एस.के.एस. विजन लिमिटेड
179.	81096	मैसर्स रमित डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	204.	127378	मैसर्स स्कायलार्क कूरियर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
180.	81095	मैसर्स रमित टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	205.	97223	मैसर्स स्मिता इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
181.	114204	मैसर्स एस. ए. हुसैन होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	206.	130582	मैसर्स सोफ्टवेज सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
182.	93923	मैसर्स सेफ ग्रोथ इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	207.	70904	मैसर्स स्पेक्ट्रम लाईटिंग इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
183.	119493	मैसर्स समर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	208.	30050	मैसर्स स्टैंडर्ड रेस्टोरेन्स प्राईवेट लिमिटेड
184.	116596	मैसर्स संपत इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	209.	79137	मैसर्स स्टेम्को इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
185.	86098	मैसर्स सप्रा प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	210.	103281	मैसर्स सुधसन इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
186.	76663	मैसर्स सारस रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	211.	111043	मैसर्स सुजय टेक्नोक्रेट्स प्राईवेट लिमिटेड
187.	51447	मैसर्स सतर्क इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड	212.	120734	मैसर्स सुपर सेवन होलिडेज प्राईवेट लिमिटेड
188.	106166	मैसर्स सात्विक फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	213.	42504	मैसर्स सुपरकल इन्फार्मेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
189.	20437	मैसर्स स्कीम इन्जीनियरिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	214.	63288	मैसर्स सुरा होटेल्स एण्ड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
190.	140712	मैसर्स स्कूलनेट हरियाणा एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	215.	119086	मैसर्स स्योर रेस्ट टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
191.	100769	मैसर्स शक्तिवेल कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	216.	95581	मैसर्स सुस्मित केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
192.	108123	मैसर्स शारदा इन्फोटेक लिमिटेड	217.	128608	मैसर्स सिसजेन बिजनेस सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
193.	87452	मैसर्स शर्मिक फिनोवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	218.	45980	मैसर्स टेक-फिन एण्ड मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
194.	111453	मैसर्स शरवरी फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	219.	79762	मैसर्स टेम्पटेस्ट ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
195.	108523	मैसर्स शिव काम्बेश्वर फौब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	220.	80052	मैसर्स थर्ड जनरेशन इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
196.	31294	मैसर्स श्री हिमशीत इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	221.	88570	मैसर्स ट्रिनिटी कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
197.	79162	मैसर्स श्रीजी सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	222.	99033	मैसर्स ट्रिन्केट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
198.	82741	मैसर्स श्री सिद्धेश मेटलर्जिकल प्राईवेट लिमिटेड	223.	59117	मैसर्स ट्राईस्टार इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
199.	127634	मैसर्स श्री सिद्धिविनायक इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	224.	113231	मैसर्स उदय होटेल्स एण्ड मोटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
200.	30661	मैसर्स शुभ ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड	225.	52346	मैसर्स अल्टीमेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
201.	110604	मैसर्स सिब्रे ड्राईव यूनिट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	226.	71786	मैसर्स उनिषा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
202.	65914	मैसर्स सिग्मा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	227.	99492	मैसर्स ऊर्जा इरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
228.	113232	मैसर्स यूआरएल कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	257.	54236	मैसर्स आरके होलिडे इन प्राईवेट लिमिटेड
229.	113964	मैसर्स यूआरएल फार्म एण्ड प्लानेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	258.	76040	मैसर्स आरके रिक्रियेशन एण्ड हेल्थ क्लब प्राईवेट लिमिटेड
230.	65666	मैसर्स वखरिया सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	259.	99399	मैसर्स आरती प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
231.	93073	मैसर्स वेलेनटाईन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	260.	70290	मैसर्स एक्टिव होलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
232.	64598	मैसर्स वाम एन्टरप्राइजेंस प्राईवेट लिमिटेड	261.	92936	मैसर्स अदीश पोलिमर्स लिमिटेड
233.	73296	मैसर्स वाम वेस्ट प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड	262.	40175	मैसर्स एडवान्स एक्सलरीज प्राईवेट लिमिटेड
234.	49315	मैसर्स वायुसन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	263.	128221	मैसर्स अडवानी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
235.	74341	मैसर्स वेगा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	264.	54854	मैसर्स एडवर्ट पेन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
236.	124218	मैसर्स विधि-सिद्धि डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	265.	115930	मैसर्स ओरावर्ल्ड ट्रेवेल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
237.	13281	मैसर्स विकास इलेक्ट्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	266.	131797	मैसर्स अग्रवाल क्लीयरिंग फोरवार्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
238.	64324	मैसर्स विमोन कमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	267.	106740	मैसर्स अग्रवाल होम मेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
239.	69667	मैसर्स विनित रंगनाथ ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	268.	25227	मैसर्स अजुमल ऑयल केक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
240.	84934	मैसर्स वरच्युअल ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड	269.	97268	मैसर्स अल फरदान होटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
241.	59078	मैसर्स विस्कॉन इलेक्ट्रोमेड प्राईवेट लिमिटेड	270.	46033	मैसर्स अमर फाइबर्स प्राईवेट लिमिटेड
242.	84614	मैसर्स विशाल होम्स प्राईवेट लिमिटेड	271.	51351	मैसर्स अमरनथाईन इन्वेस्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
243.	57171	मैसर्स वाडा ऑटो एण्ड रबर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	272.	45088	मैसर्स अमेय बिल्डिंग मेटेरियल सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
244.	53213	मैसर्स वोटर फ्लो प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	273.	100260	मैसर्स अमेय मुद्रा प्राईवेट लिमिटेड
245.	8505	मैसर्स वेयर (इण्डिया) लिमिटेड	274.	44421	मैसर्स अमृता प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
246.	128040	मैसर्स विबालय सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	275.	24166	मैसर्स आनंदी एपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
247.	96571	मैसर्स वेल टाईम शेयर एण्ड स्टॉक प्राईवेट लिमिटेड	276.	67773	मैसर्स अनिक फाईनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
248.	92209	मैसर्स वेस्ट एण्ड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	277.	124360	मैसर्स अंकित सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
249.	35859	मैसर्स योगी कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	278.	99252	मैसर्स अनविक्षा मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
250.	131586	मैसर्स जेनिथ फायर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	279.	99723	मैसर्स अपेक्स हेल्थ कार्ड प्राईवेट लिमिटेड
251.	111813	मैसर्स झायम आलु-ग्लास प्राईवेट लिमिटेड	280.	15452	मैसर्स आरसी इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
252.	43495	मैसर्स भूषण इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	281.	36784	मैसर्स आर्चिटेक्चरल एसोसिएट्स (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
253.	30995	मैसर्स निलसन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	282.	26311	मैसर्स एस्कॉम कमिकल्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
254.	19891	मैसर्स टोवा क्लोक एण्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड			
255.	136902	मैसर्स आलय इन्डोरेन्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड			
256.	116398	मैसर्स आंगन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
283.	66678	मैसर्स अशोक रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	308.	123042	मैसर्स चौहान फैशनस प्राईवेट लिमिटेड
284.	43169	मैसर्स एस्ट्रो मार्केटिंग एण्ड कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	309.	26031	मैसर्स केम-एन-इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
285.	47749	मैसर्स बाबा पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड	310.	93532	मैसर्स सी.एम.एम. कारपोरेट सर्विसेस लिमिटेड
286.	85097	मैसर्स बहुप्रिया कैपिटल एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड	311.	50421	मैसर्स कोलिन्स इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
287.	37199	मैसर्स बालाजी इलेक्ट्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड	312.	54237	मैसर्स कोन्कोर्ड कम्प्यूटर्स एण्ड डाटा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
288.	69897	मैसर्स बलालेश्वर ट्रान्सफार्मर्स प्राईवेट लिमिटेड	313.	49140	मैसर्स कोनबिल्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
289.	102573	मैसर्स बर्डे इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	314.	29603	मैसर्स ददलानी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
290.	62061	मैसर्स बेनडाले केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	315.	67012	मैसर्स डाका कम्पनी (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
291.	95238	मैसर्स भानुमा स्टील एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	316.	56892	मैसर्स डाका रिफ्रेक्टरीस प्राईवेट लिमिटेड
292.	58229	मैसर्स भिमनाथ इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	317.	116315	मैसर्स डेसी ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
293.	130194	मैसर्स बिजोन टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	318.	94637	मैसर्स दुर्वेश इन्डस्ट्रीज इण्डिया लिमिटेड
294.	136250	मैसर्स बिट्स एन बाईट्स पोलीफिल्म्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	319.	60219	मैसर्स ईगल रीयल्टी प्राईवेट लिमिटेड
295.	60222	मैसर्स ब्ल्यूक्रॉस रीयल्टी प्राईवेट लिमिटेड	320.	83822	मैसर्स इलवा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
296.	65695	मैसर्स बोम्बे सनगोलड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	321.	59080	मैसर्स ईक्युलेक्स इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
297.	70544	मैसर्स ब्रोन्को इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	322.	70789	मैसर्स ईनरटेक प्रोजेक्ट इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
298.	60400	मैसर्स ब्ल्यूवर्ड लैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	323.	94024	मैसर्स इक्विपमेन्ट लीजिंग एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
299.	134814	मैसर्स बज़ टेलिकम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	324.	88225	मैसर्स यूरो एशियन इन्टरनेशनल लिमिटेड
300.	8674	मैसर्स सी.आई.ई.एफ. (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	325.	132670	मैसर्स एवराइजिंग लाईफस्टाईल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
301.	62841	मैसर्स सी.जे. भूमकर इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	326.	40291	मैसर्स एक्सेल मेडिकोन प्राईवेट लिमिटेड
302.	96517	मैसर्स केप्रिकोर्न सीमेन्ट आर्टिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	327.	41298	मैसर्स फेडेक्स कूरियर प्राईवेट लिमिटेड
303.	56285	मैसर्स केवेनडीश एगो मिल्स लिमिटेड	328.	60225	मैसर्स फ्लेमिंगो लैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
304.	61024	मैसर्स सेन्चुरी सेन्टर फॉर इन्फोर्मेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	329.	6250	मैसर्स फूलचंद एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
305.	79882	मैसर्स केम्बोर्ड हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड	330.	68372	मैसर्स गलवक्र इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
306.	65416	मैसर्स चाणक्य फायबर्स प्राईवेट लिमिटेड	331.	86521	मैसर्स गार्डन प्लाजा डेवलपर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
307.	123033	मैसर्स चौहान कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	332.	83654	मैसर्स गर्ग हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
			333.	98571	मैसर्स गौरव नेटवर्क्स लिमिटेड



1	2	3	1	2	3
334.	140331	मैसर्स गौरी क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड	360.	111683	मैसर्स जे.ए.के. सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
335.	133605	मैसर्स गेबेरिक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	361.	92627	मैसर्स जैन बुक मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
336.	19264	मैसर्स जेमिनी केमिकल्स एण्ड डायर्स प्राईवेट लिमिटेड	362.	79487	मैसर्स जलगांव सान्ता मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड
337.	100591	मैसर्स जेनेरिक कम्प्यूटर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	363.	112736	मैसर्स जयमीत डाय केम प्राईवेट लिमिटेड
338.	35912	मैसर्स जीनियस ट्वायज एण्ड गिफ्ट्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	364.	45098	मैसर्स जयशकुन पेट्रोकेम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
339.	83854	मैसर्स गोधरा एल्कोहल्स प्राईवेट लिमिटेड	365.	110112	मैसर्स जेसीबी एक्सकेवेटर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
340.	69025	मैसर्स गोल्ड लीफ फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	366.	65908	मैसर्स ज्वेलदियम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
341.	77568	मैसर्स गुड-होप डाई-केम प्राईवेट लिमिटेड	367.	38395	मैसर्स कालिन्दी डाईस्टफ इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
342.	77059	मैसर्स गोवर्धन पेपर्स लिमिटेड	368.	70009	मैसर्स कंदिल इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड
343.	120394	मैसर्स ग्रेस डिस्टिलरीज प्राईवेट लिमिटेड	369.	105287	मैसर्स कांतिलाल अभयलाल इन्वेस्टमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
344.	123564	मैसर्स ग्रेट ईस्ट मूवमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	370.	39784	मैसर्स करमित मेटालिक्स प्राईवेट लिमिटेड
345.	89506	मैसर्स गूसी फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड	371.	113633	मैसर्स कार्थिक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
346.	103271	मैसर्स हर्षल एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	372.	39166	मैसर्स खानदेश एक्सप्लोसिव्स प्राईवेट लिमिटेड
347.	94262	मैसर्स हासवानी एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	373.	53712	मैसर्स किम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
348.	17904	मैसर्स हरक्युलस बीयरिंग्स एण्ड पिस्टन्स प्राईवेट लिमिटेड	374.	89758	मैसर्स किरन पवन पास्ता फूड्स लिमिटेड
349.	30120	मैसर्स हरक्युलस ट्यूब्स लिमिटेड	375.	117305	मैसर्स कोरस कोलोईड्स प्राईवेट लिमिटेड
350.	36623	मैसर्स हिबा फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड	376.	43901	मैसर्स कुंतल मेटालिक्स प्राईवेट लिमिटेड
351.	50673	मैसर्स हाई टेक वायर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	377.	117794	मैसर्स लझारस माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड
352.	68681	मैसर्स हाईसिस ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	378.	65497	मैसर्स लिब्राप्लेक्स होसिस प्राईवेट लिमिटेड
353.	124081	मैसर्स इन एण्ड आऊट मोनेक्स प्राईवेट लिमिटेड	379.	61356	मैसर्स लिली एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
354.	46042	मैसर्स इन्डस फुटवीयर प्राईवेट लिमिटेड	380.	92632	मैसर्स एम. एम. गैसेस प्राईवेट लिमिटेड
355.	46041	मैसर्स इन्डस शूज प्राईवेट लिमिटेड	381.	18226	मैसर्स एम. एस. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
356.	71892	मैसर्स इन्फोमेक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	382.	44748	मैसर्स मेगटेक्स यार्न्स प्राईवेट लिमिटेड
357.	58341	मैसर्स इनलैण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	383.	108804	मैसर्स महावीर प्लास्टिक्स प्रेसिजन मोल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
358.	27040	मैसर्स ईश्वरज्योत फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	384.	95740	मैसर्स मालिबु ट्रेडिंग एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
359.	99242	मैसर्स आईसोट्रोपल (इण्डिया) इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	385.	110791	मैसर्स मालपानी जैन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
			386.	119317	मैसर्स मनन एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
387.	59087	मैसर्स मांडलिक ट्रेडिंग एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	412.	53701	मैसर्स नुपर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
388.	137542	मैसर्स मंगलम फैब्रिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	413.	69329	मैसर्स ओम पद्मा रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
389.	29930	मैसर्स मार्लेक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	414.	93452	मैसर्स ओर्चिड प्राईड रीयल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
390.	105682	मैसर्स मस्ती होटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	415.	97797	मैसर्स ओर्चिड रेजिडेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
391.	69609	मैसर्स मे फ्लावर कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	416.	77807	मैसर्स ओरियन्ट शेयर रजिस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
392.	79270	मैसर्स मेगा हाइड्रोकार्बन्स प्राईवेट लिमिटेड	417.	84862	मैसर्स ओरना फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
393.	25825	मैसर्स मिगला फीड्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	418.	93250	मैसर्स ओटीमा इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
394.	132007	मैसर्स माईन्ड पॉवर इन्फोवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड	419.	50549	मैसर्स पी.एस. गोखले एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
395.	24280	मैसर्स मीर स्पेस सेलर प्राईवेट लिमिटेड	420.	53469	मैसर्स पनसीया हेल्थ केयर इक्विपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
396.	120506	मैसर्स मिरजान इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	421.	12844	मैसर्स पंकज आयरन एण्ड स्टील वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
397.	119316	मैसर्स मिताली ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	422.	32439	मैसर्स पेलिकन फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड
398.	39761	मैसर्स मोडर्न एन्टरटेनमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	423.	38803	मैसर्स फिदाद इन्जीनियरिंग एण्ड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
399.	46396	मैसर्स मोनिका कॉमर्स एण्ड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	424.	32053	मैसर्स पिलानी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
400.	36375	मैसर्स मोर प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	425.	121103	मैसर्स पायस कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
401.	55108	मैसर्स मृणाल फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	426.	128931	मैसर्स प्लेटिनम मार्केटिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
402.	67179	मैसर्स माई होम एप्लायन्सेज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	427.	62155	मैसर्स प्लस होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
403.	16508	मैसर्स नारियलवाला ब्रोस प्राईवेट लिमिटेड	428.	129996	मैसर्स पॉवर ट्रेन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
404.	51095	मैसर्स नव-वैभव मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	429.	102831	मैसर्स प्रकाश आल्कलिस एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
405.	78918	मैसर्स निकान मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	430.	87026	मैसर्स प्रेम काब्रा फिनस्टॉक प्राईवेट लिमिटेड
406.	24138	मैसर्स निशा फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड	431.	68686	मैसर्स प्राईम फ्यूमी-केम प्राईवेट लिमिटेड
407.	80839	मैसर्स नीतीश टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	432.	98032	मैसर्स प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
408.	82541	मैसर्स न्यूमरल इन्वेस्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	433.	71911	मैसर्स प्रोसीबी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
409.	88409	मैसर्स न्युमेरो युनो सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	434.	73588	मैसर्स पुरज्योत इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
410.	69908	मैसर्स न्युमेरो युनो क्रेडिट कैपिटल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	435.	55453	मैसर्स राज पाराशर इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
411.	53697	मैसर्स नुपर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	436.	56282	मैसर्स राज पिस्टन्स एण्ड बेयरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
			437.	41195	मैसर्स राजाराम जी. पाटिल सीड्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
438.	60384	मैसर्स रमा रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड	463.	23605	मैसर्स सुशील कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
439.	143405	मैसर्स रेशोफार्म आपरेशन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	464.	70604	मैसर्स शिका डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
440.	118867	मैसर्स आरवीके एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	465.	127786	मैसर्स शोबीज रिव्यूज डॉट कॉम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
441.	58084	मैसर्स रोगल मसाला सप्लाइंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	466.	76704	मैसर्स श्रुति इनऑर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
442.	57421	मैसर्स रेनुक इनफ्यूजन्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	467.	14500	मैसर्स श्याम इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
443.	97545	मैसर्स रिन्कू फाईनेन्स लिमिटेड	468.	48755	मैसर्स सिद्धी डायमन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
444.	97546	मैसर्स रिन्कू सिक्युरिटीज लिमिटेड	469.	75823	मैसर्स सिधवा एजेन्सीज एण्ड कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
445.	50631	मैसर्स रोफर्स कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	470.	114842	मैसर्स सिग्मा रोडलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
446.	50897	मैसर्स रोहन राज डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	471.	107624	मैसर्स सिल्वरलाइट इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
447.	70390	मैसर्स रोशन टाईम प्राईवेट लिमिटेड	472.	122220	मैसर्स एसके सोफ्टवेयर कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
448.	96891	मैसर्स आरपीजी बीआईसीसी पॉवर केबल्स प्राईवेट लिमिटेड	473.	71859	मैसर्स स्काई-जम्प कार्गो एण्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
449.	51423	मैसर्स रुक्षमनी इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	474.	37438	मैसर्स स्काईपैक रीयल इस्टेट एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
450.	102572	मैसर्स एस.आर. (नाशिक) प्रिन्ट पैक प्राईवेट लिमिटेड	475.	101979	मैसर्स स्काई-रपट फ्रेट प्राईवेट लिमिटेड
451.	60385	मैसर्स सार बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	476.	103067	मैसर्स सोहन ऑफसेट प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
452.	91881	मैसर्स सेफमनी फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	477.	74059	मैसर्स सोनारिधि एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
453.	19780	मैसर्स साइटिक्स उद्योग (एक्सपोर्ट्स) प्राईवेट लिमिटेड	478.	98878	मैसर्स स्पेशल सिरेमिक इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
454.	92359	मैसर्स सलसीम डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	479.	124249	मैसर्स स्पोर्ट सिक्कुरिटी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
455.	62989	मैसर्स समृद्धी रिसोर्सेज मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	480.	47549	मैसर्स स्टीज क्राफ्ट इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
456.	86499	मैसर्स संकटमोचन सिक्कुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	481.	101151	मैसर्स स्टर्लिंग मेरीटाईम सर्विसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
457.	59747	मैसर्स सेफायर मेटल्स लिमिटेड	482.	59704	मैसर्स स्टायलेटो मेटल्स लिमिटेड
458.	109252	मैसर्स सत्यप्रभा पैकेजिंग एण्ड अलाईड प्राईवेट लिमिटेड	483.	107520	मैसर्स सुखद आवास इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
459.	69610	मैसर्स स्काल कार्स्टिंग्स एण्ड इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	484.	95433	मैसर्स सुलेखा पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
460.	113792	मैसर्स सीउर ट्रेवेल प्राईवेट लिमिटेड	485.	75402	मैसर्स सुंदरलाल एण्ड सन्स टूल्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
461.	98798	मैसर्स सिक्वेल् सोफ्टवेयर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	486.	112517	मैसर्स सनी फार्म फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
462.	34186	मैसर्स शारको इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
487.	49669	मैसर्स सुपर्णा एंक्रिलैट्स प्राईवेट लिमिटेड
488.	132704	मैसर्स सुपरट्राई (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
489.	83426	मैसर्स सूर स्टायल ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड
490.	60372	मैसर्स सूरज रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड
491.	30986	मैसर्स सुरेश पैकिंग इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
492.	124488	मैसर्स सुशान्त स्टोन क्रशर एण्ड सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
493.	106061	मैसर्स सिम्फोनी ऑडियो प्राईवेट लिमिटेड
494.	141651	मैसर्स सिम्फोनी हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
495.	47451	मैसर्स सिन्थो ऑर्गेनिक इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
496.	24684	मैसर्स टल्दी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
497.	138259	मैसर्स टेकमेक्स सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
498.	105456	मैसर्स टेन्सिले फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
499.	126089	मैसर्स थिराडेये आईटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
500.	98932	मैसर्स श्री सर्कल कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड

वी. ए. विजयन मेनन  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 2006

सं. कं.सं./560(3)/सीवीएस/एस.सं./2005-2006--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	7675	मैसर्स चामुंडी इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	10711	मैसर्स ओमेगा कैड स्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
3.	10924	मैसर्स कश्यप इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	8926	मैसर्स विश्वनाथ एसोसिएट्स इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
5.	5726	मैसर्स रसेल ट्रोनिक्स लिमिटेड
6.	2880	मैसर्स विनायका केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	5462	मैसर्स ट्रान्सवर्ल्ड क्लब सफारी प्राईवेट लिमिटेड
8.	8357	मैसर्स नागा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	8554	मैसर्स टेक्निक ल्यूमिनरिस प्राईवेट लिमिटेड
10.	718	मैसर्स कॉफी एण्ड स्पाइस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
11.	9727	मैसर्स विशाल ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	5276	मैसर्स के. एम. इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	6536	मैसर्स ग्लोब स्टील इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
14.	9618	मैसर्स एश्वर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	8378	मैसर्स सुमेक एसेसरीज प्राईवेट लिमिटेड
16.	8446	मैसर्स आर्किड एथनिक न्यूट्रिएन्ट प्राईवेट लिमिटेड
17.	6225	मैसर्स माईक्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	6296	मैसर्स बी. के. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
19.	5684	मैसर्स जे. जे. कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
20.	468	मैसर्स कोन एजेन्सीज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
21.	10863	मैसर्स केयेस इम्पोटैक्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	6419	मैसर्स करीमस सिल्क फिलेचर प्राईवेट लिमिटेड
23.	7327	मैसर्स आरती पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
24.	4747	मैसर्स एम. जी. साइंटिफिक एण्ड इक्वुपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	4802	मैसर्स गीसन मोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	11542	मैसर्स डॉ. अवस्थी एण्ड एसोसिएट्स कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	9516	मैसर्स अनु मैनेजमेन्ट्स कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	9162	मैसर्स माई इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	9021	मैसर्स सुमुखा मैनेजमेन्ट्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
30.	10712	मैसर्स ऑनलाइन ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
31.	9544	मैसर्स पर्ल इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
32.	8427	मैसर्स बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	8808	मैसर्स इन्टीग्रेटेड मेटेरियल इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	7388	मैसर्स पूर्वा साइनिका सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
35.	7811	मैसर्स पीएजो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	7713	मैसर्स इन्टीग्रेटेड मेटल्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	3354	मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील्स एण्ड एलाएज प्राईवेट लिमिटेड
38.	7271	मैसर्स एच. एस. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस प्राईवेट लिमिटेड
39.	8932	मैसर्स लैन्डमार्क कनेक्टर प्राईवेट लिमिटेड
40.	2908	मैसर्स रनर्स सिनेमास प्राईवेट लिमिटेड
41.	8040	मैसर्स कैनरा इन्डस्ट्रियल कम्बाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	11004	मैसर्स सौन्दर्या इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	8292	मैसर्स नॉर्थ साउथ न्यूट्रीएन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	8293	मैसर्स एरीस होम एड्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	11595	मैसर्स मधु आर्ट स्टुडियोज प्राईवेट लिमिटेड
46.	11266	मैसर्स चन्ना विरेश्वर चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	5139	मैसर्स कर्नाटक सिन्डीकेट फाईनेन्स लिमिटेड
48.	8023	मैसर्स सार्वजनिक प्रोपर्टी डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
49.	9729	मैसर्स ट्राइडेन्ट इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	9327	मैसर्स बी. एन. इन्जीनियर्स एण्ड कन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	9187	मैसर्स राइचुर टफ ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	7690	मैसर्स सूर्या हाऊसिंग (इण्डिया) लिमिटेड
53.	3712	मैसर्स स्वप्नालोक इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	10347	मैसर्स रेजिडेन्सी मार्बल्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	9676	मैसर्स स्वर्णनम ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	7045	मैसर्स चोग्स फौब्रिका प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
57.	7743	मैसर्स सी.आई.एम.ई.एल. इन्जीनियर्स एण्ड कन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	6105	मैसर्स अश्मायुगा (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
59.	6122	मैसर्स एल. सी. ट्रांसपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	7641	मैसर्स सिग्मा पेन्ट्स (कर्नाटक) प्राईवेट लिमिटेड

सी. बी. सजीवन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

कटक, दिनांक 19 अप्रैल 2006

सं. आर.ओ.सी./एसईएस/560(5)/2006-122----कम्पनी  
अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में  
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज  
रजिस्टर से काट दिए गए हैं और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो  
गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनियों का नाम काट दिया  
गया है :-

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-00609	मैसर्स पटना इस्टेट ग्रेफाइट माईनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-00637	मैसर्स मिनी एग्रीको इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-00668	मैसर्स उत्कल कार्बन प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-00751	मैसर्स लियो मिनरल (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-00850	मैसर्स ईस्ट कोस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड
6.	15-00938	मैसर्स उत्कल ट्रेवेलिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-00952	मैसर्स मिट्को प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-01453	मैसर्स श्री राम वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-01626	मैसर्स कोनार्क इलेक्ट्रो-मेक इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-01814	मैसर्स लाईस कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-02443	मैसर्स वेस्टर्न कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-02789	मैसर्स ग्रेनाइट वर्ल्ड लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
13.	15-02838	मैसर्स ईस्टर्न ग्लोबल लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	29.	15-04918	मैसर्स सुया रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	15-02941	मैसर्स विशाल फाईनेन्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड	30.	15-05001	मैसर्स स्वास्तिक आएल एण्ड फ्लावर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	15-03008	मैसर्स पृथिवी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	31.	15-05012	मैसर्स केसीपी एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	15-03032	मैसर्स ब्रास पोल्ट्री फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	32.	15-05021	मैसर्स स्वास्तिक मेंथोल्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-03035	मैसर्स कमला वुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	33.	15-05086	मैसर्स कोनार्क स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	15-03036	मैसर्स कर्लिगा प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	34.	15-05175	मैसर्स पंचधारा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-03050	मैसर्स भाग्यश्री फाईनेन्स लिमिटेड	35.	15-05196	मैसर्स जीवनसुधा उद्योग लिमिटेड
20.	15-03143	मैसर्स मयूरभंज पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड	36.	15-05253	मैसर्स कालिका कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
21.	15-03950	मैसर्स ओडिनी टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	37.	15-05277	मैसर्स गुडी ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	15-04016	मैसर्स रेडिएन्ट फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड	38.	15-05867	मैसर्स गोल्डलाइन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-04237	मैसर्स नवीन लीजिंग एण्ड ट्रेडिंग लिमिटेड	39.	15-05919	मैसर्स नीलचक्र कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
24.	15-04293	मैसर्स कर्लिगा रीयल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	40.	15-05994	मैसर्स वेस्ट एक्वा प्राईवेट लिमिटेड
25.	15-04447	मैसर्स महावीर रोडलाइन्स प्राईवेट लिमिटेड	41.	15-06294	मैसर्स उत्कल कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	15-04520	मैसर्स पार्वती एग्रो इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड			
27.	15-04824	मैसर्स जेपोर रिक्रिएशन क्लब प्राईवेट लिमिटेड			
28.	15-04873	मैसर्स नीलचक्र ऑल माईनिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड			

डी. के. सिंह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 18th April 2006

No. F.20/2006-SCA(I).—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote Mrs. Saroj Bala Dua, Assistant Editor of Paper Books as Section Officer as a stop gap arrangement purely on ad hoc basis until further orders against a short term temporary vacancy with effect from April 12, 2006 (AN).

S. CHATTERJEE  
Additional Registrar (Admn.)

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 19th April 2006

No. 2/4/06-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints the following Personal Assistants in the Commission as Private Secretary, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on ad-hoc basis with effect from the dates mentioned against their names, for a period of three months or until further orders, whichever is earlier:—

Sr. No.	Name	Date
1.	Smt. Tripta Arora	05.04.2006 (F/N)
2.	Shri T. Jagannadha Rao	05.04.2006 (F/N)
3.	Smt. Jaspal Kaur	05.04.2006 (F/N)
4.	Smt. Sanghamitra	05.04.2006 (F/N)
5.	Shri P. Balasubramanian	05.04.2006 (F/N)

2. Appointment of the above officials to the posts of Private Secretary is purely temporary and on ad-hoc basis under rule 9 of the CVC (Staff) Rules, 1964 as amended from time to time and will not bestow upon them any claim for regular appointment.

MANGE LAL  
Officer on Special Duty  
for Central Vigilance Commissioner

The 24th April 2006

No. 2/1/06-Admn-22828.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shrimati Mamta Upadhyay Lal, IOFS (89), as Director in the Commission on Central deputation in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the forenoon of 13th April, 2006 for a period of five years or till further order, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Officer on Special Duty  
for Central Vigilance Commissioner

No. 2/2/06-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Dal Chand, Section Officer as Under Secretary in the Commission in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in officiating capacity on ad-hoc basis for a period of three months with effect from 10.04.2006 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Officer on Special Duty  
for Central Vigilance Commissioner

The 25th April 2006

No. 2/4/06-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Raj Kumar Chowdhry, Personal Assistant in the Commission as Private Secretary, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of 20.04.2006 for a period of three months or until further order, whichever is earlier.

2. Appointment of Shri Raj Kumar Chowdhry to the post of Private Secretary is purely temporary and on ad-hoc basis under rule 9 of the CVC (Staff) Rules, 1964 as amended from time to time and will not bestow upon him any claim for regular appointment.

MANGE LAL  
Officer on Special Duty  
for Central Vigilance Commissioner

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110003, the 18th April 2006

No. P.VII-4/2006-Pers-3.—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of superannuation, Shri R. L. Saini (IRLA-4168) of IAP-IV, CRPF, Chandigarh has relinquished charge of the post of Joint Asstt. Director in the afternoon of 31.03.2006.

JOGINDRA SINGH  
Addl. DIGP (Pers-III)

New Delhi-03, the 20th April 2006

No. P.VII.9/2005-Pers-I.—The President is pleased to appoint the following officers on promotion to the rank of Assistant Director (Accts) in CRPF in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-. Accordingly, they have taken over charge of the post of Assistant Director (Accounts) from the dates as noted against each:—

Sl. No.	Name of the Officer and designation	Date of assumption of charge as Asstt. Director (Accts)
1	2	3
1.	Shri C. George, Asstt. Director (A/C) IRLA: 3951	06.01.2006 (FN)

1	2	3
2.	Shri Chetan Motwani Asstt. Director (A/Cs) IRLA: 3961	06.01.2006 (FN)
3.	Shri Tara Singh Asstt. Director (A/Cs) IRLA: 3978	10.01.2006 (FN)

J. N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers.I)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
ORISSA

Puri, the 13th February 2006

No. WM-47-2-DA/DAO-1269.—The Accountant General (A&E) Orissa has been pleased to allow the following Divisional Accounts Officer Grade-II to officiate in the cadre of Divisional Accounts Officer Grade I (Group-B Gazetted) in the scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the date noted against him without prejudice to the claims of his seniors until further orders.

1. Ranjan Kumar Mohapatra 28.12.2005 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General  
(Works Accounts)

MINISTRY OF DEFENCE  
(ORDNANCE FACTORY BOARD)

Kolkata, the 10th April 2006

No. 01/2005/HQ/NG.—The DGOF/Chairman, Ordnance Factory Board, Kolkata has sanctioned the following promotions with effect from the date as specified against the name of the individual:—

Sl. No.	Name	From	To	Date of Promotion to Private Secretary
1	2	3	4	5
S/Shri/Smt.				
1.	Ram Janak	Personal Assistant	Private Secretary	01.02.2001 (FN)
2.	Dilip Kumar Das	Personal Assistant	Private Secretary	01.03.2001 (FN)
3.	Gopen Kumar Dutta	Personal Assistant	Private Secretary	07.09.2001 (FN)
4.	P. K. Hazra	Personal Assistant	Private Secretary	07.09.2001 (FN)
5.	L. N. Dutta	Personal Assistant	Private Secretary	07.09.2001 (FN)
6.	L. C. Pramanik	Personal Assistant	Private Secretary	07.09.2001 (FN)

1	2	3	4	5
7.	Debasish Mukhopadhyay	Personal Assistant	Private Secretary	01.01.2002 (FN)
8.	R. J. Banerjee	Personal Assistant	Private Secretary	19.07.2002 (FN)
9.	R. K. Chattopadhyay	Personal Assistant	Private Secretary	08.11.2002 (FN)
10.	Maya Singh	Personal Assistant	Private Secretary	08.11.2002 (FN)
11.	S. K. Ganguly	Personal Assistant	Private Secretary	19.08.2004 (FN)
12.	A. K. Sen	Personal Assistant	Private Secretary	01.03.2005 (FN)
13.	S. K. Baidya	Personal Assistant	Private Secretary	25.07.2005 (FN)

2. All the above individuals assumed higher charges of duties with effect from the date mentioned against each.

3. The officers concerned will be on probation for a period of two years from the date of their promotion.

N. MUKHOPADHYAY  
DDG/HQrs.  
for Director General, Ordnance Factories

No. 02/2005/HQ/NG.—The DGOF/Chairman, Ordnance Factory Board, Kolkata has sanctioned the following Ad-hoc promotions with effect from the date as specified against the name of the individual:—

Sl. No.	Name	From	To	Date of Ad-hoc Promotion to Assistant Staff Officer
1	2	3	4	5
S/Shri/Smt.				
1.	Narayan Chandra Bhowmick	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)
2.	Kashinath Ghosal	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)
3.	Neela Dasgupta	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)
4.	Malay Kumar Ghosh	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)
5.	Chinu Dhar	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)
6.	Rabindra Nath Dey	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)
7.	Ashoke Kumar Bandyopadhyay	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)
8.	Nirmalendu Karmakar	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)
9.	Asit Baran Biswas	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)
10.	Tapan Kumar Ghosh	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)



1	2	3	4	5
11. Syamali Mukherjee	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)	
12. Alok Kumar De Bhaumik	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)	
13. Omar Hyder Siddique	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)	
14. Satyendra Nanth Ganguly	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)	
15. Swapan Kumar Samanta	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)	
16. D. K. Paik	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)	
17. Dinesh Kumar Srivastava	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)	
18. N. C. Dey	Assistant	Assistant Staff Officer	27.05.2005 (FN)	
19. V. K. Shukla	Assistant	Assistant Staff Officer	01.06.2005 (FN)	
20. Seema Dutta	Assistant	Assistant Staff Officer	01.06.2005 (FN)	
21. Niva Das	Assistant	Assistant Staff Officer	01.07.2005 (FN)	
22. B. Halder	Assistant	Assistant Staff Officer	07.07.2005 (FN)	
23. Kalpana Roy	Assistant	Assistant Staff Officer	01.08.2005 (FN)	

2. The above ad-hoc promotions will be effective from the date mentioned against each and would be effective for one year.

3. The above ad-hoc promotions are subject to such amendment(s) as warranted due to changed circumstances if any, under any Judgement or Order passed by the Courts/Tribunals.

4. Such ad-hoc promotions will also be subject to review, if necessary, on receipt of DOP&T's instructions on the issue of seniority and promotions in the higher grades after the verdict of Hon'ble Supreme Court (Constitution Bench) in W. P. (Civil) No. 323 of 2002 and similar cases tagged together.

5. These ad-hoc promotions are ordered without effect on seniority and against the existing vacancies.

6. The notional effect of promotion in respect of SC/ST Govt. servants in terms of DOP&T's O. M. No. 2001/1/2001-Estt(D) dated 21.01.2002 will be effective as necessary, on receipt of Govt. orders as a sequel to Apex Court verdict on W. P. (Civil) No. 323 of 2002.

N. MUKHOPADHYAY  
DDG/HQrs.  
for Director General, Ordnance Factories

The 26th April 2006

#### CORRIGENDUM

No. 03/2005/HQ/NG—Following amendment is made in this Offices No. 01/2005/HQ/NG dated 10.04.2006 :—

In Sl. No. 07

For "Debasish Mukhopadhyay"

Read "Debasis Mukhopadhyay"

All other entries in aforesaid DGN remain unaltered.

N. MUKHOPADHYAY  
DDG/HQrs.  
for Director General, Ordnance Factories

#### MINISTRY OF MINES

#### INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 19th April 2006

No. A-19011/577/2004-Estt. A.—In compliance with the Ministry of Statistics & Programme Implementation, New Delhi, Order No. 12015/1/2006-ISS dated 10.02.2006 Smt. Anshu Singh, Asstt. Mineral Economist (S) Junior Time Scale (JTS) is promoted to the post of Deputy Mineral Economist (Stat) in Indian Bureau of Mines Senior Time Scale (STS) in ISS on ad-hoc-basis w.e.f. 09.03.2006 (FN).

S. K. BATAV  
Sr. Admn. Officer  
for Controller General

#### GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 19th April 2006

No. 666A/A-38012/1 (Vol.Rt.)/2002/19A.—Shri J. P. Bhinda, Artist (Group 'B' Gazetted) Geological Survey of India retired voluntarily from Government Service w.e.f. 01.09.2005(FN), in terms of Rule-48(A) of CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. SINHA  
Sr. Administrative Officer  
for Director General

#### SURVEY OF INDIA

#### SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248001, the 19th April 2006

No. C-79/707.—The undermentioned Group 'C' Division-I (Surveyors/Survey Assistants) are promoted as Officer Surveyor, Group 'B' Post in Survey of India on

regular basis in the Scale of Pay Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date(s) as shown against each:—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
1.	Shri K. C. Rath	21.12.2005
2.	Shri R. R. Ansari	28.11.2005
3.	Shri P. D. Kumar	01.12.2005
4.	Shri P. L. Bansal	30.11.2005
5.	Shri P. K. Sharma	07.12.2005
6.	Shri K. K. Barthwal	15.12.2005 (AN)
7.	Shri S. V. Venkatacharyulu	30.11.2005 (AN)
8.	Shri Kamal Sharma	25.11.2005
9.	Shri H. N. Suresh	24.11.2005
10.	Shri Madhusudan Dey	22.12.2005
11.	Shri S. K. Nautiyal	13.12.2005
12.	Shri Alok Paul	12.12.2005
13.	Shri Shashi Kant	24.11.2005
14.	Shri K. Phani Raju	24.11.2005
15.	Shri K. Anantha Kumar	28.11.2005
16.	Shri O. P. Sharma	12.12.2005
17.	Shri V. S. Rawat	25.11.2005
18.	Shri Shib Prasad Dey	15.12.2005
19.	Shri S. S. Rana	28.11.2005
20.	Shri S. K. Chakravarty	28.11.2005
21.	Shri Pradeep Kumar Ghildiyal	12.12.2005
22.	Shri Arun Kumar Thapa	22.11.2005
23.	Shri Som Prakash Sharma	09.12.2005
24.	Shri M. S. Ansari	15.12.2005
25.	Shri Sunil Kumar	07.12.2005
26.	Shri J. S. Rawat	15.12.2005 (AN)
27.	Shri Anand Singh	28.11.2005
28.	Shri N. C. Hari	15.12.2005
29.	Shri R. K. Gupta	07.12.2005
30.	Shri P. P. Jugran	24.11.2005
31.	Shri K. S. Chauhan	12.12.2005
32.	Shri Ajoy Kumar Bhatnagar	12.12.2005
33.	Shri Ashok Kumar Bhatnagar	24.11.2005
34.	Shri M. M. S. Negi	24.11.2005
35.	Shri R. Sivasdas	07.12.2005
36.	Shri Janak Kumar Giri	16.01.2006
37.	Shri N. Mohan Das	07.12.2005
38.	Shri A. Ayyaswamy	07.12.2005
39.	Shri Rajesh Mohan Ghildiyal	12.12.2005
40.	Shri N. V. S. Gupta	30.11.2005 (AN)
41.	Shri M. K. Mamgain	15.12.2005

1	2	3
42.	Shri K. Balabrahmaiah	24.11.2005
43.	Shri R. K. Thapliyal	28.11.2005
44.	Shri Birendra Singh Rana	15.12.2005
45.	Shri Ch. Ramalingam	07.12.2005 (AN)
46.	Shri Madan Mohan	12.12.2005
47.	Shri P. Palanimuthu (SC)	30.11.2005
48.	Shri R. Gowdhaman (SC)	10.02.2006
49.	Shri Ramani Ranjan Dash (SC)	24.12.2005
50.	Shri C. G. Nayak (ST)	28.11.2005
51.	Shri Tulsi Prasad (SC)	25.11.2005
52.	Shri N. E. Sreerangam (SC)	09.12.2005 (AN)
53.	Shri Bhim Sen Swansi (SC)	28.11.2005
54.	Shri A. C. Kaibarta (SC)	28.11.2005
55.	Shri Rakesh Kumar (SC)	16.12.2005
56.	Shri Prem Singh Arya (SC)	19.12.2005
57.	Shri Gopal Chandra Dalai (SC)	21.12.2005
58.	Shri Narayan Ghadei (SC)	21.12.2005
59.	Shri Bakhshish Ram (SC)	28.11.2005
60.	Shri Prasant Kumar Das (SC)	26.12.2005
61.	Shri Bal Govind Ram (SC)	24.11.2005
62.	Shri Jag Mohan Singh Negi	23.11.2005
63.	Shri Janardhan Prasad Dhyani	13.12.2005
64.	Shri Ashish Ranjan Das	25.11.2005
65.	Shri M. Venugopal	05.12.2005
66.	Shri K. Chandrappa (ST)	01.12.2005

M. GOPAL RAO  
Major General  
Surveyor General of India

No. C-114/724-SOS(A)(1).—The undermentioned Group 'C' Stores Assistant are hereby promoted as Assistant Stores Officer (G. C. S. Group 'B' Post) in Survey of India in the Pay Scale of Rs. 5,500-175-9,000/- on regular basis with effect from the date(s) as shown against their names:—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri M. S. Kalota (SC)	24.01.2006
2.	Shri S. K. Neema	24.01.2006
3.	Shri A. K. Jain	25.01.2006

M. GOPAL RAO  
Major General  
Surveyor General of India

No. C-125/725-Steno(1).—The undermentioned Stenographer Grade-I is hereby promoted to the post of Private Secretary (Group 'B') in Survey of India in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date as shown against her name:—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Smt. Raksha Rani	17.03.2006

M. GOPAL RAO  
Major General  
Surveyor General of India

#### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

##### PERSONNEL DIVISION

Mumbai-400085, the 17th April 2006

No. PD/11/(1)/2006-R-III/2006/3041.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Jayashree Mohan Nair, Assistant, BARC as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from 20.02.2006 (FN) to 31.03.2006 (AN).

D. DASARATHAN  
Dy. Establishment Officer

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 17th April 2006

No. 13/6(10)/2005-I&M(NFC)/2944.—Shri Raigiri Narayana Jayaraj, Deputy Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, Hyderabad, has assumed charge of the post of Chief Executive, Nuclear Fuel Complex with effect from the forenoon of 1st March 2006.

A. K. V. NAIR  
Under Secy. (I&M)

#### DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 17th April 2006

No. DPS/10015/Rectl./1572.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri D. Bandopadhyay, Sr. Storekeeper, SVT, DPS, Mumbai as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on an ad hoc basis in CSU, DPS, Mumbai with effect from 16.01.2006 (AN) to 03.03.2006 (AN).

KISHAN T. LONDHE  
Administrative Officer-III

#### RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452 013, the 21st April 2006

No. RRCAT/Admn/R-728(SRD)/322.—The President is pleased to appoint Shri N. Bheema as Scientific Officer/C

in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 03.04.2006 in an officiating capacity in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

D. S. RAO  
Chief Administrative Officer

#### BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400705, the 18th April 2006

No. BRIT/951/271/198.—The President is pleased to appoint Kum. Raksha Kushwah as Scientific Officer (C) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of April 04, 2006 until further orders.

A. K. KOHLI  
Chief Executive

#### INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603102, the 12th April 2006

No. IGCAR/A-11013/1/2005-R/198.—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'A' Scientific Officers of this Centre, in a substantive capacity with effect from October 1, 2005 :—

Sl. No.	Name	Designation
1	2	3
1.	Shri Palanivel A.	Scientific Officer/C
2.	Shri Peeyush Gupta	Scientific Officer/C
3.	Shri Arun Muthu K.	Scientific Officer/C
4.	Shri Jayaraj P.	Scientific Officer/C
5.	Shri Arul Baskar R.	Scientific Officer/C
6.	Shri Thiya Senthil Kumar J.	Scientific Officer/C
7.	Shri Krishnakumar S.	Scientific Officer/C
8.	Shri Vivek Nema	Scientific Officer/C
9.	Shri Sunil Kumar Gupta	Scientific Officer/C
10.	Shri Jainendra Kumar Dubey	Scientific Officer/C
11.	Shri Sudhir Kumar	Scientific Officer/C
12.	Shri Karthikeyan T.	Scientific Officer/C
13.	Shri Kinsuk Kumar Das	Scientific Officer/C
14.	Shri Ramakrishnan M.	Scientific Officer/C
15.	Shri Chandramouli Sharma M. S.	Scientific Officer/C
16.	Shri Kalyana Rao Kuchipudi	Scientific Officer/C
17.	Shri Shiv Prakash Ruhela	Scientific Officer/C
18.	Shri Satish Kumar Velaga	Scientific Officer/C

1	2	3
19.	Shri Mehul S. Bhat	Scientific Officer/C
20.	Kum. Kanchan Kushwaha	Scientific Officer/C
21.	Shri Balakrishnan S.	Scientific Officer/C
22.	Shri Suddhastwa Ghosh	Scientific Officer/C
23.	Shri Prashanth G. Nair	Scientific Officer/C
24.	Kum. Swati V. Burewar	Scientific Officer/C
25.	Shri Sumantra Mandal	Scientific Officer/C
26.	Shri Abhishek Mitra	Scientific Officer/C
27.	Shri Chetan Varma	Scientific Officer/C

V. DAYALAN  
Chief Administrative Officer

The 18th April 2006

No. IGCAR/A-11013/2006-R/274.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officer in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 9100/- in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 1st September 2005 until further orders:—

Sl. No.	IC No./Divn	Name
1.	6514/MHD/NEG	Shri Sri Ramakrishna T.

V. DAYALAN  
Chief Administrative Officer

No. IGCAR/A-11013/2006-R/275.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officers/Engineers Grade 'C' on an initial pay of Rs. 9375/- in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 1st September 2005 until further orders:—

Sl. No.	IC No./Divn	Name
1.	6511 MMD/MMG	Shri Prasad Reddy G. V.
2.	6512 RRDD/RpG	Shri Rajesh V.
3.	6513 PIRD&RHS/ITG	Shri Rakesh V.
4.	6515 STG/FRTG	Shri Prashant Sharma
5.	6516 EID/EIG	Shri Ravi Kumar Bhamidipati
6.	6517 EID/EIG	Kum. Gupta Nidhi

V. DAYALAN  
Chief Administrative Officer

## MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

### (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

#### OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kusum Rakesh Engineers Private Limited

Kanpur-208001, the 21st April 2006

No. LC/SES-2005/25270/269.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kusum Rakesh Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kanpur Diagnostic Aid Private Limited

Kanpur-208001, the 24th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/10049/280.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kanpur Diagnostic Aid Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rockmens Health & Wealth Marketing Private Limited

Kanpur-208001, the 24th April 2006

No. LC/SES-2005/27276/284.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rockmens Health & Wealth Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. NVP Caterers and Hotilers Private Limited

Kanpur-208001, the 24th April 2006

No. LC/SES-2005/15682/288.—Notice is hereby given

pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. NVP Caterers and Hotilers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sagun Plantation Limited

Kanpur-208001, the 24th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/20764/292.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sagun Plantation Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tiruvishnu Investment Company Private Limited

Kanpur-208001, the 24th April 2006

No. LC/SES-2005/17709/296.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tiruvishnu Investment Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Asmita Nursing Home Private Limited

Kanpur-208001, the 24th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/23221/300.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Asmita Nursing Home Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chakreshwari Steel Private Limited

Kanpur-208001, the 24th April 2006

No. LC/SES-2005/9399/304.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chakreshwari Steel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Konark Fertilizers Private Limited

Kanpur-208001, the 24th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/24655/308.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Konark Fertilizers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Satyam Plaza Private Limited

Jaipur, the 31st March 2006

No. ROC/JPR/SES2/560/3761/413.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Satyam Plaza Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sterling Real Estates Private Limited

Jaipur, the 31st March 2006

No. ROC/JPR/SES2/560/3886/417.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Sterling Real Estates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wonder Arts Private Limited

Jaipur, the 31st March 2006

No. ROC/JPR/560/20128/421.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Wonder Arts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Renu Consultants Private Limited

Jaipur, the 31st March 2006

No. ROC/JPR/560/9937/425.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Renu Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and  
application under Simplified Exit Scheme, 2003  
under Section 560 of the Companies Act, 1956

Jammu-180012, the 20th April 2006.

No. ROC/JMU/560(5)/SES-2003.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have been struck off from the Register of Companies and the Companies stand dissolved from the date of publication of this notice:—

Sl. No.	Name of the Company	Registration No.	Date of Incorporation
1.	M/s. Kashmir Ferro Pvt. Ltd.	1185	16.07.1990
2.	M/s. Rajouri Investments Pvt. Ltd.	787	12.06.1985
3.	M/s. High Tech Dairies Pvt. Ltd.	1691	13.06.1997

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following Companies

Mumbai-400002, the 20th April 2006

No. 560(5)/2003.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register of Companies and the following Companies are dissolved.

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	60832	M/s. Varsha K Shah Trading and Investment Company Pvt. Ltd.
2.	128999	M/s. Vidyut e-Businesses Pvt. Ltd.
3.	65866	M/s. Vishay Investment and Finance Pvt. Ltd.
4.	66844	M/s. Vision Monetary Services Pvt. Ltd.
5.	90890	M/s. Webstar Traders Pvt. Ltd.
6.	36733	M/s. Well-Build Construction Co. Pvt. Ltd.
7.	52063	M/s. Western Estate Exchange Ltd.
8.	66621	M/s. Windfull Investment & Finance Pvt. Ltd.
9.	40932	M/s. Yogo Lawry Engineers Pvt. Ltd.
10.	65957	M/s. Alkyl Technology Ventures Ltd.
11.	115052	M/s. Abranaz Trading Pvt. Ltd.
12.	93432	M/s. Aditi Horti Ltd.
13.	98585	M/s. Adore Trading & Finance Pvt. Ltd.
14.	94931	M/s. Ad-up Investments Pvt. Ltd.
15.	103100	M/s. Agarwal Metal Trading Pvt. Ltd.
16.	128304	M/s. Akkal. Com (India) Pvt. Ltd.
17.	90500	M/s. All Speciality Chemical Pvt. Ltd.
18.	66046	M/s. Alpine Marketing Pvt. Ltd.
19.	102627	M/s. Ama Communications Services Pvt. Ltd.
20.	87361	M/s. Ambar Securities Pvt. Ltd.
21.	27942	M/s. Ample Electronics Pvt. Ltd.
22.	105432	M/s. Anand Timeshare Resorts Pvt. Ltd.
23.	97110	M/s. Anjana Sharebrokers Pvt. Ltd.
24.	39522	M/s. Ankit Developers Pvt. Ltd.

1	2	3
25.	77425	M/s. Ankur Iron & Steel (Bombay) Pvt. Ltd.
26.	24221	M/s. Apraulic Builders & Investment Pvt. Ltd.
27.	28102	M/s. Apraulic Exports Pvt. Ltd.
28.	80933	M/s. Aseptic Plastics Pvt. Ltd.
29.	18000	M/s. Ashrafi Investments Pvt. Ltd.
30.	95369	M/s. Ashtalaxmi Estates Pvt. Ltd.
31.	71624	Ashwin Interchem Pvt. Ltd.
32.	133840	M/s. Atash Multimodal Services Pvt. Ltd.
33.	59368	M/s. Autoplast (India) Ltd.
34.	94054	M/s. Avik Financial Services Pvt. Ltd.
35.	114907	M/s. Azraa Trading Pvt. Ltd.
36.	99858	M/s. B. Arun Silverware Pvt. Ltd.
37.	17343	M/s. Badamia Investments Pvt. Ltd.
38.	122990	M/s. BBC Cargo Pvt. Ltd.
39.	87487	M/s. Best Navrang Finvest Pvt. Ltd.
40.	97181	M/s. Bhatia Brothers Electronics Pvt. Ltd.
41.	106569	M/s. Bhatia Brothers (International) Pvt. Ltd.
42.	96183	M/s. Bhatia Brothers Dyes & Chemicals Pvt. Ltd.
43.	104721	M/s. Bhatia Brothers Industries Pvt. Ltd.
44.	105489	M/s. Bhatia Brothers Trading Enterprises Pvt. Ltd.
45.	54534	M/s. Bituchem Membranes Ltd.
46.	93310	M/s. Bridge Capital Services Ltd.
47.	141590	M/s. Capita Support Services Pvt. Ltd.
48.	98838	M/s. Cedar Chemicals Pvt. Ltd.
49.	66812	M/s. Chase Impex Pvt. Ltd.
50.	63303	M/s. Chatterjee Kulkarni & Associate Architects & Designers Pvt.
51.	52394	M/s. Chelation Therapy Centre Pvt. Ltd.
52.	93387	M/s. Chetan Copper & Commodities Ltd.
53.	108158	M/s. Chib Leasing & Finance Pvt. Ltd.
54.	93529	M/s. CMM Audios Ltd.
55.	93531	M/s. CMM Broadcast Equipment Ltd.

1	2	3
56.	72052	M/s. Computer Training & Education Services (India) Pvt. Ltd.
57.	52532	M/s. Cross Weave Exports Pvt. Ltd.
58.	46267	M/s. Cybermart International Ltd.
59.	112760	M/s. Dastak Films & Video Tech. Pvt. Ltd.
60.	44095	M/s. Dealpharma Impex (India) Pvt. Ltd.
61.	113498	M/s. Decorum Tradelinks Pvt. Ltd. (C/N)
62.	48691	M/s. Deepak Yarn Processors Industries Pvt. Ltd.
63.	25924	M/s. Delta Consultants Pvt. Ltd.
64.	123736	M/s. Dhanush Impex Pvt. Ltd.
65.	110506	M/s. Dymo Marketing Agency Pvt. Ltd.
66.	57745	M/s. Eastern Lifters Pvt. Ltd.
67.	130479	M/s. Eastern Web Technologies Pvt. Ltd.
68.	45219	M/s. Elegant Planners Pvt. Ltd.
69.	82490	M/s. Emfaude Investment & Finance Pvt. Ltd.
70.	77328	M/s. Fands Financial Services Pvt. Ltd.
71.	87885	M/s. Fantastic Leafin & Investment Pvt. Ltd.
72.	56030	M/s. Fa-Sha Investments Pvt. Ltd.
73.	82342	M/s. Fine Remedies Pvt. Ltd.
74.	92335	M/s. Fire Burglary Systems Pvt. Ltd.
75.	68987	M/s. Fire Stone Investment Pvt. Ltd.
76.	85891	M/s. Generate Investments Pvt. Ltd.
77.	94772	M/s. Gooddeal Properties Pvt. Ltd.
78.	44256	M/s. Goyal Wool Carplex Pvt. Ltd.
79.	124487	M/s. Grafikon Properties Pvt. Ltd.
80.	131636	M/s. Graphiti Info-Teck Pvt. Ltd.
81.	74682	M/s. Gurusuri Investments and Financial Services Pvt. Ltd.
82.	26520	M/s. Haria Marketing and Services Pvt. Ltd.
83.	56029	M/s. Hassanian Investments Pvt. Ltd.
84.	126209	M/s. Hi Build (India) Pvt. Ltd.
85.	84598	M/s. Himadri Investrade Pvt. Ltd.
86.	83096	M/s. Hitesh Shares and Stock Brokers Pvt. Ltd.

1	2	3
87.	93193	M/s. HVS Consultancy & Financial Services Pvt. Ltd.
88.	24529	M/s. Indoson Export Pvt. Ltd.
89.	42624	M/s. Ingorex Export Agencies Pvt. Ltd.
90.	101107	M/s. Integrated Exim Pvt. Ltd.
91.	57959	M/s. Intellectual Vision Pvt. Ltd.
92.	42782	M/s. Interlink Services (India) Pvt. Ltd.
93.	97630	M/s. Jai Mata Di Enterprises Pvt. Ltd.
94.	65365	M/s. Janas Services & Consultancy Pvt. Ltd.
95.	51085	M/s. Jeswani Fabrics Pvt. Ltd.
96.	37305	M/s. Joy Electricals & Electronics Pvt. Ltd.
97.	86823	M/s. Jvin Securities & Finance Ltd.
98.	87707	M/s. Kaizen Equity Research and Management Services Ltd.
99.	29259	M/s. Kamon Trade & Finstock Pvt. Ltd.
100.	95896	M/s. Kanchan Investments & Trade Pvt. Ltd.
101.	17611	M/s. Kanungo Investments Pvt. Ltd.
102.	92027	M/s. Kashid Impex Pvt. Ltd.
103.	74697	M/s. Khandelwal Peroxides Pvt. Ltd.
104.	101557	M/s. Kiraata Trading Pvt. Ltd.
105.	88308	M/s. Kkunal Trans-Chem Pvt. Ltd.
106.	47854	M/s. KMP Syntex Pvt. Ltd.
107.	19994	M/s. Lakshmy Cine Enterprises Pvt. Ltd.
108.	96036	M/s. Lalwani Realtors Ltd.
109.	83074	M/s. Landmark Erectors (Goa) Pvt. Ltd.
110.	96186	M/s. Lavanya Marketing Pvt. Ltd.
111.	100855	M/s. Lco Thermoware Ltd.
112.	122468	M/s. Life Line Heart Institute Pvt. Ltd.
113.	77424	M/s. Loiwal Steels Pvt. Ltd.
114.	99683	M/s. Loonker Commodities Pvt. Ltd.
115.	26235	M/s. Lu Bra Diz Tube Engineers Pvt. Ltd.
116.	104325	M/s. Lumex Lighting Pvt. Ltd.
117.	22406	M/s. M G A Investment Company Pvt. Ltd.

1	2	3
118.	28825	M/s. MM Industrial Holding & Trading Company Pvt. Ltd.
119.	23258	M/s. MM Trading & Investment Company Pvt. Ltd.
120.	140121	M/s. M N 2 Promed Services Pvt. Ltd.
121.	75206	M/s. Maadeep Trading & Investment Company Pvt. Ltd.
122.	57994	M/s. Magnum Jewellers Pvt. Ltd.
123.	43958	M/s. Magnum Video Production Pvt. Ltd.
124.	35903	M/s. Maharaja Electronics Pvt. Ltd.
125.	59966	M/s. Mahi Steel Alloys Pvt. Ltd.
126.	51446	M/s. Makarand Investments Pvt. Ltd.
127.	53596	M/s. Mansukh Developers Pvt. Ltd.
128.	74344	M/s. Maple Shipping Pvt. Ltd.
129.	21438	M/s. Markiv Power Ltd.
130.	89347	M/s. Marpas & Mapras Exports Pvt. Ltd.
131.	43733	M/s. Marudhar Resorts Pvt. Ltd.
132.	79560	M/s. Master Motors Finance Pvt. Ltd.
133.	127541	M/s. Mastermind Online Systems Pvt. Ltd.
134.	30230	M/s. Meal Club (India) Pvt. Ltd.
135.	127066	M/s. Medico Network (India) Pvt. Ltd.
136.	112937	M/s. Meeran Cosmetics Pvt. Ltd.
137.	57525	M/s. Metal Power Consultancy (India) Pvt. Ltd.
138.	44104	M/s. Monopoli Investments Pvt. Ltd.
139.	101118	M/s. Motivate Estate Pvt. Ltd.
140.	62227	M/s. Mudra Electro Food Industries Ltd.
141.	94977	M/s. Multiact Investments Pvt. Ltd.
142.	56608	M/s. Multisales Agencies Pvt. Ltd.
143.	82960	M/s. Musuko Stock Brokers Pvt. Ltd.
144.	25048	M/s. N U Electronics Pvt. Ltd.
145.	47334	M/s. Nagina Trading Pvt. Ltd.
146.	75209	M/s. Nalby Financial Services Pvt. Ltd.
147.	83316	M/s. Narayandas Lalchand Computers Pvt. Ltd.
148.	87061	M/s. Navira Investments & Finance Pvt. Ltd.
149.	65500	M/s. Neenad Advertising & Marketing Pvt. Ltd.



1	2	3
150.	65292	M/s. Nellai Holdings Pvt. Ltd.
151.	89107	M/s. Networth Creditline Pvt. Ltd.
152.	123810	M/s. Networth Equiline Pvt. Ltd.
153.	97188	M/s. Networth Housing Finance Co. Ltd.
154.	95015	M/s. Networth Pharmaceuticals Ltd.
155.	5632	M/s. New Associated Commercial Enterprises Pvt. Ltd.
156.	60003	M/s. Nilesh Steel Fabricators Pvt. Ltd.
157.	84615	M/s. Nitin Realtors Pvt. Ltd.
158.	45004	M/s. Oncup Investment & Consultants Pvt. Ltd.
159.	67650	M/s. Onida Enkay Communionida Enkay Communications Ltd.
160.	57513	M/s. Pearl Beach Resorts Pvt. Ltd.
161.	111091	M/s. Pelican Multipack Pvt. Ltd.
162.	76402	M/s. Peregrine Investments Pvt. Ltd.
163.	42204	M/s. Pirelli Hotels & Properties Pvt. Ltd.
164.	117329	M/s. PMC-Sierra India Networking Pvt. Ltd. (C/N)
165.	111027	M/s. Powerlight Systems Pvt. Ltd.
166.	127409	M/s. Prime Education Network Services Pvt. Ltd.
167.	42123	M/s. Prosoft Consultants Pvt. Ltd.
168.	98288	M/s. Prthvi Electronics Pvt. Ltd.
169.	79746	M/s. Puffin Traders Pvt. Ltd.
170.	109403	M/s. Qualitas Healthcare Pvt. Ltd.
171.	81963	M/s. Radil Capital & Finance Ltd.
172.	115307	M/s. Raja Refrigerations Pvt. Ltd.
173.	53263	M/s. Ranadip Agro Industrial Company Pvt. Ltd.
174.	57255	M/s. Rastik Holdings Pvt. Ltd.
175.	85510	M/s. Ratanlal C Bafna Metal Industries Ltd.
176.	86067	M/s. Raushee Cylinder Manufacturing Company Pvt. Ltd.
177.	36575	M/s. Reevik Leasing Company Pvt. Ltd.
178.	61546	M/s. Reward Power Systems Pvt. Ltd.
179.	81096	M/s. Rumeet Developers Pvt. Ltd.
180.	81095	M/s. Rumeet Tours & Travels Pvt. Ltd.

1	2	3
181.	114204	M/s. S. A. Hussain Holdings Pvt. Ltd.
182.	93923	M/s. Safe Growth Investments Pvt. Ltd.
183.	119493	M/s. Samar Trading Pvt. Ltd.
184.	116596	M/s. Sampat Infotech Pvt. Ltd.
185.	86098	M/s. Sapra Properties & Investments Pvt. Ltd.
186.	76663	M/s. Saras Resorts Pvt. Ltd.
187.	51447	M/s. Satark Investments Ltd.
188.	106166	M/s. Sattwik Finance Pvt. Ltd.
189.	20437	M/s. Scheme Engineering and Trading Company Pvt. Ltd.
190.	140712	M/s. Schoolnet Haryana Education and Training Services Pvt. Ltd.
191.	100769	M/s. Shaktivel Capital Services Pvt. Ltd.
192.	108123	M/s. Sharda Infotech Ltd.
193.	87452	M/s. Sharmick Finovest Pvt. Ltd.
194.	111453	M/s. Sharwari Financial Services Pvt. Ltd.
195.	108523	M/s. Shiv Kambeshwar Fabrics Pvt. Ltd.
196.	31294	M/s. Shree Hemashita Investment Pvt. Ltd.
197.	79162	M/s. Shreji Securities Pvt. Ltd.
198.	82741	M/s. Shri Siddhesh Metallurgical Pvt. Ltd.
199.	127634	M/s. Shri Siddhivinayak Estate Pvt. Ltd.
200.	30661	M/s. Shubh Tubes Pvt. Ltd.
201.	110604	M/s. Sibre Drive Units (India) Pvt. Ltd.
202.	65914	M/s. Sigma Sales Pvt. Ltd.
203.	123706	M/s. SKS Vision Ltd.
204.	127378	M/s. Skylark Courier Services Pvt. Ltd.
205.	97223	M/s. Smita Electronics Pvt. Ltd.
206.	130582	M/s. Softbase Solutions (India) Pvt. Ltd.
207.	70904	M/s. Spectrum Lighting Industries Pvt. Ltd.
208.	30050	M/s. Standard Restuarants Pvt. Ltd.
209.	79137	M/s. Stemco Engineering Pvt. Ltd. (C/N)
210.	103281	M/s. Sudhson Engineering Company Pvt. Ltd.

1	2	3
211.	111043	M/s. Sujay Technocrates Pvt. Ltd.
212.	120734	M/s. Super Seven Holidays Pvt. Ltd.
213.	42504	M/s. Supercal Information Systems Pvt. Ltd.
214.	63288	M/s. Sura Hotels & Properties Pvt. Ltd.
215.	119086	M/s. Sure Rest Tours & Travels Pvt. Ltd.
216.	95581	M/s. Susmit Chemicals Pvt. Ltd.
217.	128608	M/s. Sysgen Business Solutions (India) Pvt. Ltd.
218.	45980	M/s. Tech-Fin & Management Services Pvt. Ltd.
219.	79762	M/s. Temptest Trading Company Pvt. Ltd.
220.	80052	M/s. Third Generation Investment & Finance Pvt. Ltd.
221.	88570	M/s. Trinity Capital Services Pvt. Ltd.
222.	99033	M/s. Trinket Exports Pvt. Ltd.
223.	59117	M/s. Tristar Impex Pvt. Ltd.
224.	113231	M/s. Uday Hotels & Motels Pvt. Ltd.
225.	52346	M/s. Ultimate Marketing Pvt. Ltd.
226.	71786	M/s. Unisha Exports Pvt. Ltd.
227.	99492	M/s. Urja Erectors Pvt. Ltd.
228.	113232	M/s. URL Constructions Pvt. Ltd.
229.	113964	M/s. URL Farms & Plantations Pvt. Ltd.
230.	65666	M/s. Vakharia Sales Pvt. Ltd.
231.	93073	M/s. Valantine Properties Pvt. Ltd.
232.	64598	M/s. Vam Enterprises Pvt. Ltd.
233.	73296	M/s. Vam Waste Processors Pvt. Ltd.
234.	49315	M/s. Vayuson Impex Pvt. Ltd.
235.	74341	M/s. Vega Impex Pvt. Ltd.
236.	124218	M/s. Vidhi-Siddhi Developers Pvt. Ltd.
237.	13281	M/s. Vikas Electrics Pvt. Ltd.
238.	64324	M/s. Vimom Chemicals Pvt. Ltd.
239.	69667	M/s. Vinit Ranghnath Trading Pvt. Ltd.
240.	84934	M/s. Virtual Graphics Pvt. Ltd.
241.	59078	M/s. Viscon Electromed Pvt. Ltd.
242.	84614	M/s. Vishal Homes Pvt. Ltd.

1	2	3
243.	57171	M/s. Wada Auto & Rubber Industries Pvt. Ltd.
244.	53213	M/s. Water Flow Plastics Pvt. Ltd.
245.	8505	M/s. Wear (India) Ltd.
246.	128040	M/s. Webalaya Software Pvt. Ltd.
247.	96571	M/s. Well Time Share & Stock Pvt. Ltd.
248.	92209	M/s. Westend Impex Pvt. Ltd.
249.	35859	M/s. Yogi Consultants Pvt. Ltd.
250.	131586	M/s. Zenith Fire Services Pvt. Ltd.
251.	111813	M/s. ZYM Alu-Glass Pvt. Ltd.
252.	43495	M/s. Bhushan Investments & Leasing Pvt. Ltd.
253.	30995	M/s. Nilson Investments Pvt. Ltd.
254.	19891	M/s. Towa Clock & Tools Pvt. Ltd.
255.	136902	M/s. Aalay Insurance Services Pvt. Ltd.
256.	116398	M/s. Aangan Trading Pvt. Ltd.
257.	54236	M/s. Aarkay Holiday Inn Pvt. Ltd.
258.	76040	M/s. Aarkay Recreation & Health Club Pvt. Ltd.
259.	99399	M/s. Aarti Projects Pvt. Ltd.
260.	70290	M/s. Active Holdings Pvt. Ltd.
261.	92936	M/s. Adish Polymers Ltd.
262.	40175	M/s. Advance Auxiliaries Pvt. Ltd.
263.	128221	M/s. Advani India Pvt. Ltd.
264.	54854	M/s. Advert Pen Company Pvt. Ltd.
265.	115930	M/s. Aeroworld Travel Services Pvt. Ltd.
266.	131797	M/s. Agrawal Clearing Forwarding Pvt. Ltd.
267.	106740	M/s. Agrawal Home Makers Pvt. Ltd.
268.	25227	M/s. Ajoomal Oil Cakes Exports Pvt. Ltd.
269.	97268	M/s. Al Fardan Hotels & Resorts Pvt. Ltd.
270.	46033	M/s. Amar Fibres Pvt. Ltd.
271.	51351	M/s. Amaranthine Investment & Trading Company Pvt. Ltd.

1	2	3
272.	45088	M/s. Ameya Building Material Suppliers Pvt. Ltd.
273.	100260	M/s. Ameya Mudra Pvt. Ltd.
274.	44421	M/s. Amruta Properties Pvt. Ltd.
275.	24166	M/s. Anandji Apparel Pvt. Ltd.
276.	67773	M/s. Anik Finance and Leasing Pvt. Ltd.
277.	124360	M/s. Ankit Softech Pvt. Ltd.
278.	99252	M/s. Anviksha Management Consultancy Services Pvt. Ltd.
279.	99723	M/s. Apex Health Card Pvt. Ltd.
280.	15452	M/s. Arcee Electronics Pvt. Ltd.
281.	36784	M/s. Architectural Associates (Bombay) Pvt. Ltd.
282.	26311	M/s. Ascom Chemicals Exports Pvt. Ltd.
283.	66678	M/s. Ashoka Resorts Pvt. Ltd.
284.	43169	M/s. Astro Marketing and Commercial Pvt. Ltd.
285.	47749	M/s. Baba Packaging Pvt. Ltd.
286.	85097	M/s. Bahupriya Capital and Finance Ltd.
287.	37199	M/s. Balaji Electrotech Pvt. Ltd.
288.	69897	M/s. Ballaleshwar Transformers Pvt. Ltd.
289.	102573	M/s. Barde Enterprises Pvt. Ltd.
290.	62061	M/s. Bendale Chemicals Pvt. Ltd.
291.	95238	M/s. Bhanurama Steel and Allied Products Pvt. Ltd.
292.	58229	M/s. Bhimnath Investments Pvt. Ltd.
293.	130194	M/s. Bijon Technologies Pvt. Ltd.
294.	136250	M/s. Bits N Bytes Polyfilms (India) Pvt. Ltd.
295.	60222	M/s. Bluecross Realty Pvt. Ltd.
296.	65695	M/s. Bombay Sungold Exports Pvt. Ltd.
297.	70544	M/s. Bronco Investments Pvt. Ltd.
298.	60400	M/s. Blebird Land Developers Pvt. Ltd.
299.	134814	M/s. Buzz Telecommunications Pvt. Ltd.
300.	8674	M/s. C. I. E. F. (India) Pvt. Ltd.

1	2	3
301.	62841	M/s. C. J. Bhumkar Investments Pvt. Ltd.
302.	96517	M/s. Capricorn Cement Articles Pvt. Ltd.
303.	56285	M/s. Cavendish Agro Mills Ltd.
304.	61024	M/s. Century Centre for Information Services Pvt. Ltd.
305.	79882	M/s. Chambord Housing Finance Ltd.
306.	45416	M/s. Chanakya Fibres Pvt. Ltd.
307.	123033	M/s. Chauhan Capital Services Pvt. Ltd.
308.	123042	M/s. Chauhan Fashions Pvt. Ltd.
309.	26031	M/s. Chem-En-Engineering Pvt. Ltd.
310.	93532	M/s. CMM Corporate Services Ltd.
311.	50421	M/s. Collins Investments & Trading Company Pvt. Ltd.
312.	49140	M/s. Conbuild Developers Pvt. Ltd.
313.	54237	M/s. Concord Computers & Data Systems Pvt. Ltd.
314.	29603	M/s. Dadlani Investments Pvt. Ltd.
315.	67012	M/s. Daka Company (Bombay) Pvt. Ltd.
316.	56892	M/s. Daka Refractories Pvt. Ltd.
317.	116315	M/s. Desi Trading Company Pvt. Ltd.
318.	94637	M/s. Durvesh Industries India Ltd.
319.	60219	M/s. Eagle Realty Pvt. Ltd.
320.	83822	M/s. Elva Exports Pvt. Ltd.
321.	59080	M/s. Emulex Investments Pvt. Ltd.
322.	70789	M/s. Eneritech Project Engineers Pvt. Ltd.
323.	94024	M/s. Equipment Leasing & Finance Pvt. Ltd.
324.	88225	M/s. Euro Asian International Ltd.
325.	132679	M/s. Everising Lifestyles India Pvt. Ltd.
326.	40291	M/s. Excel Medicon Pvt. Ltd.
327.	41298	M/s. Fedex Couries Pvt. Ltd.
328.	60225	M/s. Flamingo Land Developers Pvt. Ltd.
329.	6250	M/s. Fulchand & Sons Pvt. Ltd.

1	2	3	1	2	3
330.	68372	M/s. Gajwakra Investments & Trading Company Pvt. Ltd.	361.	92627	M/s. Jain Book Manufacturing Company Ltd.
331.	86521	M/s. Garden Plaza Developers Company Pvt. Ltd.	362.	79487	M/s. Jalgaon Santa Milk Products Ltd.
332.	83654	M/s. Garg Housing Pvt. Ltd.	363.	112736	M/s. Jaymit Dye Chem Pvt. Ltd.
333.	98571	M/s. Gaurav Networks Ltd.	364.	45098	M/s. Jayshakun Petrochem (India) Pvt. Ltd.
334.	140331	M/s. Gauri Creations Pvt. Ltd.	365.	110112	M/s. JCB Excavators (India) Pvt. Ltd.
335.	133605	M/s. Geberix Exports Pvt. Ltd.	366.	65908	M/s. Jeweldiam (India) Pvt. Ltd.
336.	19264	M/s. Gemini Chemicals & Dyes Pvt. Ltd.	367.	38395	M/s. Kalindi Dystuff Industries Pvt. Ltd.
337.	100591	M/s. Generic Computer Technologies Pvt. Ltd.	368.	70009	M/s. Kandeel Investments and Finance Ltd.
338.	35912	M/s. Genious Toys & Gifts Manufacturing Company Pvt. Ltd.	369.	105287	M/s. Kantilal Amthlal Investment Consultants Pvt. Ltd.
339.	83854	M/s. Godhara Alcohols Pvt. Ltd.	370.	39784	M/s. Karmit Metallics Pvt. Ltd.
340.	69025	M/s. Gold Leaf Finance Pvt. Ltd.	371.	113633	M/s. Karthik Marketing Pvt. Ltd.
341.	77568	M/s. Good-Hope Dye-Chem Pvt. Ltd.	372.	39166	M/s. Khandesh Explosives Pvt. Ltd.
342.	77059	M/s. Govardhan Papers Ltd.	373.	53712	M/s. Kim Builders Pvt. Ltd.
343.	120394	M/s. Grace Distilleries Pvt. Ltd.	374.	89758	M/s. Ki-Ran Pavan Pasta Foods Ltd.
344.	123564	M/s. Great East Movement Pvt. Ltd.	375.	117305	M/s. Kores Colloids Pvt. Ltd.
345.	89506	M/s. Gucci Fashions Pvt. Ltd.	376.	43901	M/s. Kuntal Metallics Pvt. Ltd.
346.	103271	M/s. Harshal Exports (India) Pvt. Ltd.	377.	117794	M/s. Lazarus Mining Pvt. Ltd.
347.	94262	M/s. Haswani Agro Products Ltd.	378.	65497	M/s. Libraflex Hoses Pvt. Ltd.
348.	17904	M/s. Hercules Bearings & Pistons Pvt. Ltd.	379.	61356	M/s. Lily Agencies Pvt. Ltd.
349.	30120	M/s. Hercules Tubes Ltd.	380.	92632	M/s. M. M. Gases Pvt. Ltd.
350.	36623	M/s. Hiba Films Pvt. Ltd.	381.	18226	M/s. M. S. Builders Pvt. Ltd.
351.	50673	M/s. High Tech Wire Industries Pvt. Ltd.	382.	44748	M/s. Maglex Yarns Pvt. Ltd.
352.	68681	M/s. Highseas Traders Pvt. Ltd.	383.	108804	M/s. Mahavir Plastics Precision Moulding Pvt. Ltd.
353.	124081	M/s. In-and-Out Monex Pvt. Ltd.	384.	95740	M/s. Malibu Trading & Agencies Pvt. Ltd.
354.	46042	M/s. Indus Footwear Pvt. Ltd.	385.	110791	M/s. Malpani Jain Properties Pvt. Ltd.
355.	46041	M/s. Indus Shoes Pvt. Ltd.	386.	119317	M/s. Manan Exim Pvt. Ltd.
356.	71892	M/s. Infomax Computers Systems Pvt. Ltd.	387.	59087	M/s. Mandlik Trading and Agencies Pvt. Ltd.
357.	58341	M/s. Inland Holdings Pvt. Ltd.	388.	137542	M/s. Mangalam Fabrics (India) Pvt. Ltd.
358.	27040	M/s. Ishwarjyot Finance and Investment Pvt. Ltd.	389.	29930	M/s. Marlex Exports Pvt. Ltd.
359.	99242	M/s. Isotrol (India) International Pvt. Ltd.	390.	105682	M/s. Masti Hotels & Resorts Pvt. Ltd.
360.	111683	M/s. J A K Securities Pvt. Ltd.	391.	69609	M/s. Mayflower Commercial Pvt. Ltd.

1	2	3
392.	79270	M/s. Mega Hydrocarbons Pvt. Ltd.
393.	25825	M/s. Migala Feeds & Chemicals Pvt. Ltd.
394.	132007	M/s. Mind Power Infoways Pvt. Ltd.
395.	24280	M/s. Mir Spaceseller Pvt. Ltd.
396.	120506	M/s. Mirzan Instruments Pvt. Ltd.
397.	119316	M/s. Mitali Trading Pvt. Ltd.
398.	39761	M/s. Modern Entertainments Pvt. Ltd.
399.	46396	M/s. Monica Commerce and Trade Pvt. Ltd.
400.	36375	M/s. Mor Properties & Investments Pvt. Ltd.
401.	55108	M/s. Mrinal Finance Pvt. Ltd.
402.	67179	M/s. My Home Appliances (India) Pvt. Ltd.
403.	16508	M/s. Narielwala Bros Pvt. Ltd.
404.	51095	M/s. Nav-Vaibhav Marketing Pvt. Ltd.
405.	78918	M/s. Nican Marketing Pvt. Ltd.
406.	24138	M/s. Nisha Fashions Pvt. Ltd.
407.	80839	M/s. Nishit Tours & Travels Pvt. Ltd.
408.	82541	M/s. Numeral Investment and Trading Company Pvt. Ltd.
409.	88409	M/s. Numero Uno Securities Pvt. Ltd.
410.	69908	M/s. Numero Uno Credit Capital & Investment Pvt. Ltd.
411.	53697	M/s. Nupa Builders Pvt. Ltd.
412.	53701	M/s. Nupar Builders Pvt. Ltd.
413.	69329	M/s. Om Padma Resorts Pvt. Ltd.
414.	93452	M/s. Orchid Pride Real Estate Pvt. Ltd.
415.	97797	M/s. Orchid Residency Pvt. Ltd.
416.	77807	M/s. Orient Share Registry Pvt. Ltd.
417.	84862	M/s. Orna Finance Pvt. Ltd.
418.	93250	M/s. Otima Electronics Pvt. Ltd.
419.	50549	M/s. P. S. Gokhale & Associates Pvt. Ltd.
420.	53469	M/s. Panacea Healtheare Equipments Pvt. Ltd.
421.	12844	M/s. Pankaj Iron & Steel Works Pvt. Ltd.
422.	32439	M/s. Pelican Fisheries Pvt. Ltd.

1	2	3
423.	38803	M/s. Phidad Engineering & Properties Pvt. Ltd.
424.	32053	M/s. Pilani Ispat Pvt. Ltd.
425.	121103	M/s. Pious Capital Pvt. Ltd.
426.	128931	M/s. Platinum Marketing (India) Pvt. Ltd.
427.	62155	M/s. Plus Holdings Pvt. Ltd.
428.	129996	M/s. Powertrain India Pvt. Ltd.
429.	102831	M/s. Prakash Alkalies & Chemicals Pvt. Ltd.
430.	87026	M/s. Prem Kabra Finstock Pvt. Ltd.
431.	68686	M/s. Prime Fumi-Chem Pvt. Ltd.
432.	98032	M/s. Productivity Systems Engineering Pvt. Ltd.
433.	71911	M/s. Prosobee Investments Pvt. Ltd.
434.	73588	M/s. Purjyot Engineers Pvt. Ltd.
435.	55453	M/s. Raj Parashar Investment Pvt. Ltd.
436.	56282	M/s. Raj Pistons & Bearings Pvt. Ltd.
437.	41195	M/s. Rajaram G. Patil Seeds Pvt. Ltd.
438.	60384	M/s. Rama Realty Pvt. Ltd.
439.	143405	M/s. Ratiopharm Operations India Pvt. Ltd.
440.	118867	M/s. RBK Exports Pvt. Ltd.
441.	58084	M/s. Regal Masala Supplying Company Pvt. Ltd.
442.	57421	M/s. Renuk Infusions & Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
443.	97545	M/s. Rinku Finance Ltd.
444.	97546	M/s. Rinku Securities Ltd.
445.	50631	M/s. Roffers Constructions Pvt. Ltd.
446.	50897	M/s. Rohanraj Developers Pvt. Ltd.
447.	70390	M/s. Roshan Time Pvt. Ltd.
448.	96891	M/s. RPG Bicc Power Cables Pvt. Ltd.
449.	51423	M/s. Rukshmani Investments & Trading Company Pvt. Ltd.
450.	102572	M/s. S. R. (Nashik) Printpaek Pvt. Ltd.
451.	60385	M/s. Saar Builders Pvt. Ltd.
452.	91881	M/s. Safemoney Finance Pvt. Ltd.
453.	19780	M/s. Saitex Udyoga (Exports) Pvt. Ltd.
454.	92359	M/s. Salsim Developers Pvt. Ltd.

1	2	3
455.	62989	M/s. Samruddhi Resources Management Pvt. Ltd.
456.	86499	M/s. Sankat Mochan Securities Pvt. Ltd.
457.	59747	M/s. Sapphire Metals Ltd.
458.	109252	M/s. Satyaprabha Packaging & Allied Pvt. Ltd.
459.	69610	M/s. Scala Castings and Engineering Pvt. Ltd.
460.	113792	M/s. Seeour Travel Pvt. Ltd.
461.	98798	M/s. Sequel Software Technologies Pvt. Ltd.
462.	34186	M/s. Sharco Electronics Pvt. Ltd.
463.	23605	M/s. Shasheel Construction & Development Company Pvt. Ltd.
464.	70604	M/s. Shica Distributors Pvt. Ltd.
465.	127786	M/s. Showbiz Reviews Dot Com (India) Pvt. Ltd.
466.	76704	M/s. Shruti Inorganics Pvt. Ltd.
467.	14500	M/s. Shyam Electricals Pvt. Ltd.
468.	48755	M/s. Siddhi Diamonds Pvt. Ltd.
469.	75823	M/s. Sidhwa Agencies & Consultancy Pvt. Ltd.
470.	114842	M/s. Sigma Roadlines Pvt. Ltd.
471.	107624	M/s. Silverlight Enterprises Pvt. Ltd.
472.	122220	M/s. SK Software Consultancy Pvt. Ltd.
473.	71859	M/s. Sky-Jump Cargo & Tours Pvt. Ltd.
474.	37438	M/s. Skypak Real Estate & Developers Pvt. Ltd.
475.	101979	M/s. Sky-Rapat Freight Pvt. Ltd.
476.	103067	M/s. Sohan Offset Press Pvt. Ltd.
477.	74059	M/s. Sonaridhi Agro Foods Pvt. Ltd.
478.	98878	M/s. Special Ceramic Industries Pvt. Ltd.
479.	124249	M/s. Spot Security Service Pvt. Ltd.
480.	47549	M/s. Steelcraft Engineers Pvt. Ltd.
481.	101151	M/s. Sterling Maritime Services India Pvt. Ltd.
482.	59704	M/s. Stiletto Metals Ltd.
483.	107520	M/s. Sukhad Aavas Investment Pvt. Ltd.
484.	95433	M/s. Sulekha Publications Pvt. Ltd.

1	2	3
485.	75402	M/s. Sunderlal & Sons Tools Trading Pvt. Ltd.
486.	112517	M/s. Sunny Farms Food Products Pvt. Ltd.
487.	49669	M/s. Suparna Acrylates Pvt. Ltd.
488.	132704	M/s. Superdry (India) Pvt. Ltd.
489.	83426	M/s. Sur Style Jewellery Pvt. Ltd.
490.	60372	M/s. Suraj Realty Pvt. Ltd.
491.	30986	M/s. Suresh Packing Industries Pvt. Ltd.
492.	124488	M/s. Sushanta Stone Crusher and Cement Pvt. Ltd.
493.	106061	M/s. Symphony Audio Pvt. Ltd.
494.	141651	M/s. Symphony Housing Pvt. Ltd.
495.	47451	M/s. Syntho Organic Industries Pvt. Ltd.
496.	24684	M/s. Taldi Investments Pvt. Ltd.
497.	138259	M/s. Tec-Max Solutions (India) Pvt. Ltd.
498.	105456	M/s. Tensile Fastners Pvt. Ltd.
499.	126089	M/s. Thirdeye It Solutions Pvt. Ltd.
500.	98932	M/s. Three Circle Constructions Pvt. Ltd.

V. A. VIJAYAN MENON  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 2006

No. CVS/560(3)/SES/2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that on expiry of three months from the date hereof, the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	7675	M/s. Chamundi Engineering Works Pvt. Ltd.
2.	10711	M/s. Omega Cadd Station Pvt. Ltd.

1	2	3
3.	10924	M/s. Kashyap Electronics Pvt. Ltd.
4.	8926	M/s. Vishwanath Associates Engineers Pvt. Ltd.
5.	5726	M/s. Rasel Tronics Ltd.
6.	2880	M/s. Vinayaka Chemicals Pvt. Ltd.
7.	5462	M/s. Transworld Club Safari Pvt. Ltd.
8.	8357	M/s. Naga Builders Pvt. Ltd.
9.	8554	M/s. Technic Lumineries Pvt. Ltd.
10.	718	M/s. Coffee & Spice Company Pvt. Ltd.
11.	9727	M/s. Vishal Granites Pvt. Ltd.
12.	5276	M/s. K M Engineering Pvt. Ltd.
13.	6536	M/s. Globe Steel Industry Pvt. Ltd.
14.	9618	M/s. Ashnor Hotels Pvt. Ltd.
15.	8378	M/s. Sumek Accessories Pvt. Ltd.
16.	8446	M/s. Orchid Ethnic Nutrients Pvt. Ltd.
17.	6225	M/s. Mikes Pvt. Ltd.
18.	6296	M/s. B K Marketing Pvt. Ltd.
19.	5684	M/s. J J Computer Services Pvt. Ltd.
20.	468	M/s. Cone Agencies (India) Pvt. Ltd.
21.	10863	M/s. Kayess Importex Pvt. Ltd.
22.	6419	M/s. Kareems Silk Filature Pvt. Ltd.
23.	7327	M/s. Arati Packaging Pvt. Ltd.
24.	4747	M/s. M G Scientific & Equipments Pvt. Ltd.
25.	4802	M/s. Geason Mobiles Pvt. Ltd.
26.	11542	M/s. Dr. Avasthi & Associates Consultants Pvt. Ltd.
27.	9516	M/s. Anu Management Consultants Pvt. Ltd.
28.	9162	M/s. My Electronics Pvt. Ltd.
29.	9021	M/s. Sumukha Management Services Pvt. Ltd.
30.	10712	M/s. Online Travels Pvt. Ltd.
31.	9544	M/s. Pearl Engineering Pvt. Ltd.
32.	8427	M/s. Bangalore Electronics Pvt. Ltd.
33.	8808	M/s. Integrated Material Imports Pvt. Ltd.
34.	7388	M/s. Purva Sainika Services Pvt. Ltd.
35.	7811	M/s. Piezo Electronics Pvt. Ltd.

1	2	3
36.	7713	M/s. Integrated Metals & Instruments Pvt. Ltd.
37.	3354	M/s. Electro Steels & Alloys Pvt. Ltd.
38.	7271	M/s. H S Electronic Devices Pvt. Ltd.
39.	8932	M/s. Landmark Connectors Pvt. Ltd.
40.	2908	M/s. Runner's Cinemas Pvt. Ltd.
41.	8040	M/s. Canara Industrial Combines Pvt. Ltd.
42.	11004	M/s. Soundarya Estates Pvt. Ltd.
43.	8292	M/s. North South Nutrients Pvt. Ltd.
44.	8293	M/s. Aries Home Aids Pvt. Ltd.
45.	11595	M/s. Madhu Art Studios Pvt. Ltd.
46.	11266	M/s. Channa Veerashwar Chit Funds Pvt. Ltd.
47.	5139	M/s. Karnataka Syndicate Finance Ltd.
48.	8023	M/s. Sarvajanic Property Development Pvt. Ltd.
49.	9729	M/s. Trident Impex Pvt. Ltd.
50.	9327	M/s. V N Engineers & Contractors Pvt. Ltd.
51.	9187	M/s. Raichur Tuff Treads Pvt. Ltd.
52.	7690	M/s. Surya Housing (India) Ltd.
53.	3712	M/s. Swapnalok Estate Pvt. Ltd.
54.	10347	M/s. Residency Marbles & Exports Pvt. Ltd.
55.	9676	M/s. Swarnum Oils Pvt. Ltd.
56.	7045	M/s. Chigs Fabreeka Pvt. Ltd.
57.	7743	M/s. C. I. M. E. L. Engineers & Contractors Pvt. Ltd.
58.	6105	M/s. Ashmayuga (India) Pvt. Ltd.
59.	6122	M/s. L C Transporters Pvt. Ltd.
60.	7641	M/s. Sigma Paints (Karnataka) Pvt. Ltd.

C. V. SAJEEVAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Cuttack-753001, the 19th April 2006

No. ROC/SES/05/2006/122.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the section 560 of the

Companies Act, 1956 the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and are dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-000609	M/s. Patna Estate Graphite Mining Company Pvt. Ltd.
2.	15-000637	M/s. Mini Agrico Industries Pvt. Ltd.
3.	15-000668	M/s. Utkal Carbon Pvt. Ltd.
4.	15-000751	M/s. Geo Mineral (India) Pvt. Ltd.
5.	15-000850	M/s. East Coast Holdings Ltd.
6.	15-000938	M/s. Utkal Travelling Pvt. Ltd.
7.	15-000952	M/s. Mitco Pvt. Ltd.
8.	15-001453	M/s. Sri Ram Wires Pvt. Ltd.
9.	15-001626	M/s. Konark Electro-Mech Engineers Pvt. Ltd.
10.	15-001814	M/s. Lords Construction Pvt. Ltd.
11.	15-002443	M/s. Western Construction and Consultancy Pvt. Ltd.
12.	15-002789	M/s. Granite World Ltd.
13.	15-002838	M/s. Eastern Global Links Pvt. Ltd.
14.	15-002941	M/s. Vishal Finance and Construction Company Ltd.
15.	15-003008	M/s. Prudhivi Industries Ltd.
16.	15-003032	M/s. Bros Poultry Farms Pvt. Ltd.
17.	15-003035	M/s. Kamala Wood Products Pvt. Ltd.
18.	15-003036	M/s. Kalinga Plastic Industries Pvt. Ltd.
19.	15-003050	M/s. Bhagya Shree Finance Ltd.
20.	15-003143	M/s. Mayurbhanj Papers Pvt. Ltd.

1	2	3
21.	15-003950	M/s. Odienne Tours and Travels Pvt. Ltd.
22.	15-004016	M/s. Radiant Finance & Investment Ltd.
23.	15-004237	M/s. Naveen Leasing & Trading Ltd.
24.	15-004293	M/s. Kalinga Real Estate Pvt. Ltd.
25.	15-004447	M/s. Mahaveer Roadlines Pvt. Ltd.
26.	15-004520	M/s. Parbati Agro Industries Pvt. Ltd.
27.	15-004824	M/s. Jeypore Recreation Club Pvt. Ltd.
28.	15-004873	M/s. Nilachakra all Mining and Construction Company Pvt. Ltd.
29.	15-004918	M/s. Suma Rubbers Pvt. Ltd.
30.	15-005001	M/s. Swastik Ail & Flour Mills Pvt. Ltd.
31.	15-005012	M/s. KCP Agro Farms Pvt. Ltd.
32.	15-005021	M/s. Swastik Menthols Pvt. Ltd.
33.	15-005086	M/s. Konark Spinners Pvt. Ltd.
34.	15-005175	M/s. Panchadhara Builders and Developers Pvt. Ltd.
35.	15-005196	M/s. Jivansudha Udyog Ltd.
36.	15-005253	M/s. Kalika Constructions and Services Pvt. Ltd.
37.	15-005277	M/s. Gudi Automobiles Pvt. Ltd.
38.	15-005867	M/s. Goldline Systems Pvt. Ltd.
39.	15-005919	M/s. Nilachakra Cold Storage Pvt. Ltd.
40.	15-005994	M/s. West Aqua Pvt. Ltd.
41.	15-006294	M/s. Utkal Computers Pvt. Ltd.

D. K. SINGH  
Asstt. Registrar of Companies  
ORISSA

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006.